



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 13—अप्रैल 19, 2013 (चैत्र 23, 1935)  
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13—APRIL 19, 2013 (CHAITRA 23, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2013

थल सेना विभाग

सं. 144, दिनांक 18 मार्च 2013—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

कोर ऑफ सिगनल

स्थाई सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार विक्रम सिंह खत्री (जेसी-369896डब्ल्यू), 04 नवम्बर 2011  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

सूबेदार एस एन पाण्डेय (जेसी-369897वाई), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार तरुण कुमार भद्रा (जेसी-369267वाई), 09 जनवरी 2012

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

स्थाई सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर) के रैंक में

सूबेदार ब्रजेश कुमार (जेसी-375850के), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार सुशांता कुमार दास (जेसी-375491एफ), 11 जनवरी 2012

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार पदमा कुमार डी एस (जेसी-374786एल), 01 नवम्बर  
2011

सूबेदार राम सिंह (जेसी-374792वाई), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार दिनेश चन्द्र नियोलिया (जेसी-374794के), 01 दिसम्बर  
2011

सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-374795एम), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-374799एच), 02 दिसम्बर 2011

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

|   |   |
|---|---|
| सूबेदार चन्द्र भान (जेसी-374803ए), 01 दिसम्बर 2011  | नायब सूबेदार गम्भीर सिंह बसेरा (जेसी-378778के), 01 अक्टूबर 2012                               |
| सूबेदार पंकज कुमार सिंह (जेसी-374832पी), 01 दिसम्बर 2011  |   |
| सूबेदार आर के सिंह (जेसी-374833एक्स), 01 दिसम्बर 2011   | स्थायी सूबेदार (ओएसएस) के रैंक में  |
| सूबेदार संत राम सैनी (जेसी-373019ए), 01 जनवरी 2012  | नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-378378एक्स), 01 अक्टूबर 2012                                   |
| सूबेदार शिव केश दुबे (जेसी-373030वाई), 01 जनवरी 2012  | नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-378379ए), 01 अक्टूबर 2012                                   |
| स्थायी सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में  | स्थायी सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में  |
| नायब सूबेदार साजि जॉर्ज (जेसी-376617एच), 13 दिसम्बर 2012  | नायब सूबेदार घना कांता बौरगोहेन (जेसी-377827पी), 01 अक्टूबर 2012                              |
| (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी) | (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2012 से दी जायेगी) |
| नायब सूबेदार पी बी शमाराव (जेसी-376738के), 01 सितम्बर 2012                                      | नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-378793वाई), 01 सितम्बर 2012   |
| नायब सूबेदार हरूप सिंह गुर्जर (जेसी-376742एम), 01 अक्टूबर 2012                                  | नायब सूबेदार ए आर चौधरी (जेसी-378857वाई), 01 अक्टूबर 2012                                     |
| नायब सूबेदार सुदर्शनन पिल्लई जे (जेसी-376743पी), 01 अक्टूबर 2012                                | नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-378858एफ), 01 अक्टूबर 2012                                    |
| नायब सूबेदार भौरै लहु दौलतराव (जेसी-376745ए), 01 अक्टूबर 2012                                   | नायब सूबेदार सतीश चन्द्र (जेसी-378860वाई), 01 अक्टूबर 2012                                    |
| नायब सूबेदार अनिल कुमार सी के (जेसी-376971एक्स), 01 अक्टूबर 2012                                | नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-378923डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012                                 |
| स्थायी सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में   | नायब सूबेदार चन्द्र कुमार दुत्ता (जेसी-378924वाई), 01 अक्टूबर 2012                            |
| नायब सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-378417एल), 01 सितम्बर 2012                                     | नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-378925एफ), 01 अक्टूबर 2012                                     |
| नायब सूबेदार एम रहमान (जेसी-378418एन), 01 सितम्बर 2012  | नायब सूबेदार के भास्कर रेड्डी (जेसी-378943के), 01 अक्टूबर 2012                                |
| नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-378431एक्स), 01 सितम्बर 2012                                     | नायब सूबेदार एस अहमद बरभुइया (जेसी-378944एम), 01 अक्टूबर 2012                                 |
| नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-378661एल), 01 सितम्बर 2012                                   | नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-378945पी), 01 अक्टूबर 2012                                      |
| नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-378665एफ), 01 अक्टूबर 2012                                      | नायब सूबेदार उन्नीकृष्णन बी (जेसी-378947ए), 01 अक्टूबर 2012                                   |
| नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जेसी-378666के), 01 अक्टूबर 2012                                       | नायब सूबेदार नीलम श्रीनिवास राव (जेसी-378946एक्स), 01 अक्टूबर 2012                            |
| नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-378667एम), 01 अक्टूबर 2012                                       | नायब सूबेदार दिलीप कुमार एस (जेसी-378948एच), 01 अक्टूबर 2012                                  |
| नायब सूबेदार उमेश चन्द (जेसी-378668पी), 01 अक्टूबर 2012   | नायब सूबेदार एन भोजाराज (जेसी-378970एन), 01 नवम्बर 2012                                       |
| नायब सूबेदार मृत्युंजय शर्मा (जेसी-378670एम), 01 अक्टूबर 2012                                   | नायब सूबेदार वी रंगाशिवा अरूळ एन (जेसी-378971डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012                         |
| स्थायी सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में   | स्थायी सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में   |
| नायब सूबेदार सुरेश चन्द यादव (जेसी-378747के), 01 अक्टूबर 2012                                   | नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-378386डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012                                  |
| नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-378776वाई), 01 अक्टूबर 2012                                       | नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-378509एक्स), 01 अक्टूबर 2012                                     |
| नायब सूबेदार लौहर सिंह (जेसी-378777एफ), 01 अक्टूबर 2012   |   |

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-378511पी), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-378568के), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार अब्दुल कलाम (जेसी-378570एफ), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार सतपाल शर्मा (जेसी-378639ए), 01 अक्टूबर 2012

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार मोहम्मद सादिक (जेसी-378896एक्स), 01 मार्च 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बी पी राजामणि नायडू (जेसी-378107ए), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुगाथन एस (जेसी-378525पी), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बुलबुल गोगोई (जेसी-378586एम), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-378589ए), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार किशन सिंह महारा (जेसी-378763एफ), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र भारद्वाज (जेसी-378803एक्स), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार परमेश्वर सिंह (जेसी-378955वाई), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार सिंह (जेसी-379066एन), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ध्रुवा ज्योति सैकिया (जेसी-379433पी), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-379443वाई), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-379444एफ), 01 जुलाई 2012

नायब सूबेदार पम्मी वी रमन्ना मूर्ति (जेसी-379449ए), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्यामल पॉल (जेसी-379454एल), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामाकांता सिंघा (जेसी-379494एम), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार सुनील जोसेफ (जेसी-377966वाई), 17 सितम्बर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विश्वानाथन के (जेसी-379505एन), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-379507वाई), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार गवादे महेन्द्र दमोदर (जेसी-379510वाई), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शाजु भान (जेसी-379512के), 01 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कपूर सिंह (जेसी-379515एक्स), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार पी कुमार त्रिपाठी (जेसी-379516ए), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार विनोद कुमार शर्मा (जेसी-379517एच), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार बी वेंकटा रमन्ना (जेसी-379519एन), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-379520एच), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार गौतम गोस्वामी (जेसी-379521एल), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार संतोष कुमार पाण्डेय (जेसी-379522एन), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-379569वाई), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार महेश चन्द तिवारी (जेसी-379571डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार एस रंजीत कुमार सिंघा (जेसी-379572वाई), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-379573एफ), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार श्रीकांता मिश्रा (जेसी-379575एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार श्यामल करमाकर (जेसी-379576पी), 02 अक्टूबर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कुम्भहार लक्ष्मण पी (जेसी-379578ए), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार रवीन्द्र कुमार सिंह (जेसी-379579एच), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार के अधिरूबन (जेसी-379580एक्स), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार मंजूर अहमद खान (जेसी-379581ए), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार भ्रिगुनाथ सिंह (जेसी-379582एच), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार चुरा मणि (जेसी-379583एल), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार भेरू लाल सुमन (जेसी-379584एन), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार मदन कुमार (जेसी-379586वाई), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार दिनेश कुमार साहु (जेसी-379589एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार एम गुनाशेखरन (जेसी-379590एफ), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार जगदीश कुमार (जेसी-379591के), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार अनिल सिंह मनहास (जेसी-379592एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार के शंकर यादव (जेसी-379593पी), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार कोमारनेनिसेशु बाबू (जेसी-379594एक्स), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार भूषण दत्त कश्यप (जेसी-379595ए), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार हजारा सिंह (जेसी-379596एच), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार गोविन्द प्रसाद (जेसी-379598एन), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार दवेन्द्र सिंह चुंगे (जेसी-379599डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार अमिया लहान (जेसी-379600ए), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार जतेन्द्र कुमार (जेसी-379601एच), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार सुशील कुमार वर्मा (जेसी-379602एल), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार प्रमोद ई के (जेसी-379673एम), 01 नवम्बर 2012

स्थाई सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार इन्द्रजीत उपाध्याय (जेसी-376744एक्स), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार प्रोलय देबनाथ (जेसी-376973एच), 02 दिसम्बर 2012

स्थाई सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-378663डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार सरोज कुमार गुप्ता (जेसी-378664वाई), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार बाना बिहार बराल (जेसी-378671पी), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार अरूण कुमार सिंह (जेसी-378672एक्स), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार अनूप कुमार (जेसी-378673ए), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार कौशिक (जेसी-378674एच), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार एम के त्रिपाठी (जेसी-378675एल), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार अजय पाल सिंह (जेसी-378676एन), 05 दिसम्बर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर राय (जेसी-378677डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार राजपूत सुजान सिंह आर (जेसी-378678वाई),  
01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार सुनील कुमार वी सी (जेसी-378679एफ), 01 दिसम्बर  
2012

नायब सूबेदार पुष्पेन्दु नंदा (जेसी-378680डब्ल्यू), 01 दिसम्बर  
2012

स्थाई सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार हरवर सिंह (जेसी-378779एम), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार राजेन्द्रन वी (जेसी-378780एफ), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार शाहाबुद्दीन अंसारी (जेसी-378781के), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार पी के सामन्तरी (जेसी-378782एम), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार प्रदीप एस (जेसी-378783पी), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-378825डब्ल्यू), 02 दिसम्बर  
2012

स्थाई सूबेदार (ओ एस एस) के रैंक में

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-378376एम), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार जाधव बालु अनंदा (जेसी-378380पी), 01 अक्टूबर  
2012

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-378381एक्स), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार विलोचन प्रसाद जोशी (जेसी-378382ए), 01 दिसम्बर  
2012

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-378444पी), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-378447एच), 01 दिसम्बर  
2012

नायब सूबेदार बजिल्ला टैल्लिस (जेसी-378487के), 01 दिसम्बर  
2012

स्थाई सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

नायब सूबेदार भूकन सिंह (जेसी-378859के), 01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार संतोष कुमार जी (जेसी-378969वाई), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार पी एस थंगामुथु (जेसी-378973एफ), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार जी रवि (जेसी-379059एक्स), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार जीवन सिंह (जेसी-379060एम), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार पवन कुमार सदौत्रा (जेसी-379061पी), 01 दिसम्बर  
2012

नायब सूबेदार गौरी शंकर शर्मा (जेसी-379062एक्स), 01 दिसम्बर  
2012

स्थाई सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार देवादास एम (जेसी-378385एन), 17 सितम्बर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सौदन सिंह (जेसी-378794एफ), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार बनि सिंह (जेसी-378795के), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार ओमवीर सिंह (जेसी-378862के), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार नवल किशोर (जेसी-378863एम), 01 दिसम्बर 2012

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार संतोष कुमार स्वेन (जेसी-379568डब्ल्यू), 01 अक्टूबर  
2012

नायब सूबेदार गोवर्धन महाराणा (जेसी-379606एफ), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार अजय कुमार सिंह (जेसी-379607के), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार ओम कनवर (जेसी-379608एम), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार जगदीश नारायण (जेसी-379612पी), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार खमाकर राजू एस (जेसी-379670वाई), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-379671एफ), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-379672के), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार राधे श्याम यादव (जेसी-379674पी), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार सुशांता घोष (जेसी-379675एक्स), 05 नवम्बर 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अंजन कुमार भुयन (जेसी-379676ए), 01 नवम्बर  
2012

नायब सूबेदार सेनुद्दीन पी पी (जेसी-379694एच), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-379695एल), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार जय भगवान (जेसी-379696एन), 01 नवम्बर 2012

नायब सूबेदार विनय कुमार (जेसी-379697डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार पिताबस मोहंता (जेसी-379698वाई), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार हरिदया नारायण शाह (जेसी-379701एन), 01 दिसम्बर  
2012

नायब सूबेदार के नरेन्द्र सिंह आर एस (जेसी-379702डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार सलुनखे भौउसाहेब एन (जेसी-379704एफ), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार कदम भरत बजरंग (जेसी-379705के), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार शिरसिकर विजय सेवकराम (जेसी-379706एम), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार गोपा कुमार पी एस (जेसी-379707पी), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार पॉलिसी अशोक बी (जेसी-379713एच), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार सतनाम दास (जेसी-379714एल), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार प्रमोद बी के (जेसी-379717वाई), 01 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार रामाकांत शर्मा (जेसी-378256एन), 02 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार सत्येन्द्र पाल सिंह (जेसी-379718एफ), 02 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार रावण रविन्द्रनाथ ए (जेसी-379719के), 02 दिसम्बर 2012

नायब सूबेदार महावीर (जेसी-379720वाई), 02 दिसम्बर 2012

स्थायी सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार ओमप्रकाश मलाव (जेसी-376017ए), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रताप (जेसी-376016एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार दोभादा रवीन्द्र कुमार आर (जेसी-376019एल), 01 जनवरी 2012

स्थायी सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रभात गुछैत (जेसी-377483एफ), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-377484के), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-377485एम), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार आर एस कुमारन (जेसी-377487एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार आर विजया भास्कर (जेसी-377489एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार बैजु पी (जेसी-377491ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार सत्तारू लक्ष्मण राव (जेसी-377492एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार मुकेश कुमार ओझा (जेसी-377493एल), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार मुरुगन आर (जेसी-377494एम), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार आशुतोष झा (जेसी-377773वाई), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार सीजो एस (जेसी-377774एफ), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार जोगा राम पटेल (जेसी-377775के), 01 जनवरी 2012

स्थायी सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार गुनानिधि नायक (जेसी-378439के), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार के वेंकट रेड्डी (जेसी-377704एच), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार चंडी दास (जेसी-378151के), 04 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लखपत सिंह (जेसी-378206एच), 01 जनवरी 2012

स्थायी सूबेदार (ओ एस एस) के रैंक में

नायब सूबेदार विपिन कुमार सिंह (जेसी-377985के), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार गुरतेज सिंह (जेसी-377986एम), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार ए रामा मोहन (जेसी-377987पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार पी के सिंह (जेसी-377988एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जेसी-377989ए), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार हरि कुमार सिंघा (जेसी-377991एक्स), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार एल के मोहन सिंघा (जेसी-377992ए), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार श्यामल दत्ता (जेसी-378056एक्स), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार संजय कुमार दास (जेसी-378057ए), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार सुनील दत्त (जेसी-378060ए), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार शिओधरि यादव (जेसी-378061एच), 01 जनवरी 2012

स्थायी सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

नायब सूबेदार राम सेवक (जेसी-377381एल), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार जी ऐलंगोवन (जेसी-377383डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार शरीष पॉल (जेसी-378030एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार मोबरोक शेख (जेसी-377441पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-377554एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-377557एल), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार ए मधुमंगल सिंघा (जेसी-377577वाई), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार बेरिस्टर सिंह यादव (जेसी-377580वाई), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार काशी नाथ पाण्डेय (जेसी-377582के), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-377638एल), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार गिरिश चन्द्र जोशी (जेसी-377642एन), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जेसी-377644वाई), 01 जनवरी 2012

स्थाई सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-379425डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार डी बी अम्बादास (जेसी-377427एच), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ए के पाण्डेय (जेसी-378167पी), 01 अक्टूबर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस के मोहन सिंघा (जेसी-378276एफ), 01 अक्टूबर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चन्दु कुट्टन के जी (जेसी-378514एच), 01 नवम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हेमेन्द्र सिंह (जेसी-378602वाई), 01 नवम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सरत सिंह (जेसी-378614एन), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-378617एफ), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-378618के), 01 दिसम्बर 2011  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस एन चौधरी (जेसी-378622एम), 01 दिसम्बर 2011  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-378623पी), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राकेश कुमार गुप्ता (जेसी-378630एल), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मदन कुमार शर्मा (जेसी-378631एन), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जून 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रतन लाल (जेसी-378736एक्स), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-378770एक्स), 01 दिसम्बर 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एम लाउर्दुराज (जेसी-378772एच), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के राजेश कुमार एस आर एस (जेसी-378797पी), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जॉय जॉन (जेसी-378802पी), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बल राम (जेसी-378805एच), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिव प्रसन्ना (जेसी-378868एल), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मुकेश कुमार सिंह (जेसी-378869एन), 01 जनवरी 2012

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-378883ए), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार चन्द्र भूषण (जेसी-378884एच), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-378885एल), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार भूपेश चन्द (जेसी-378886एन), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार जय नाथ पाण्डेय (जेसी-378887डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार यू के कुंडु (जेसी-378888वाई), 01 जनवरी 2012

स्थायी नायब सूबेदार (जे ई सिस्टम) के रैंक में

हवलदार सुजा राम जाखड़ (सं. 15392787एच अब जेसी-381523पी), 01 जुलाई 2012

हवलदार संतोष कुमार मिश्रा (सं. 15665945एफ अब जेसी-381543एच), 01 जुलाई 2012

हवलदार खिम सिंह (सं. 15667887एफ अब जेसी-381639एल), 01 अक्टूबर 2012

(स्थायी नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 15394781ए अब जेसी-381704ए), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार के के बिश्वाल (सं. 15387073एल अब जेसी-381801एल), 01 नवम्बर 2012

हवलदार श्रीमन परकाति (सं. 15667605एक्स अब जेसी-381802ए), 01 नवम्बर 2012

हवलदार शिव चरण मिश्रा (सं. 15669261एच अब जेसी-381803एच), 01 नवम्बर 2012

स्थायी नायब सूबेदार (जे ई एन ई) के रैंक में

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 15389442डब्ल्यू अब जेसी-381574एच), 19 अगस्त 2012

(स्थायी नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

स्थायी नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार राजेश कुमार एम वी (सं. 15375625एफ अब जेसी-381804एल), 01 नवम्बर 2012

हवलदार ए के अवस्थी (सं. 15375453एक्स अब जेसी-381805एन), 01 नवम्बर 2012

हवलदार संकारा परिदा (सं. 15372572एच अब जेसी-381806डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

हवलदार टिटस सोजा (सं. 15371949पी अब जेसी-381807वाई), 01 नवम्बर 2012

हवलदार राउत सुनील चंग्देओ (सं. 15374437एन अब जेसी-381808एफ), 01 नवम्बर 2012

हवलदार अरूण कुमार (सं. 15372616पी अब जेसी-381809के), 01 नवम्बर 2012

हवलदार अजय (सं. 15374833के अब जेसी-381853एन), 01 दिसम्बर 2012

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15375452पी अब जेसी-381855वाई), 01 दिसम्बर 2012

स्थायी नायब सूबेदार (ओ एस एस) के रैंक में

हवलदार एम प्रताप सिंह (सं. 15365529वाई अब जेसी-381810वाई), 01 नवम्बर 2012

हवलदार नंद लाल (सं. 15367937एच अब जेसी-381811एफ), 01 नवम्बर 2012

हवलदार हरगोविन्द वल्लभ (सं. 15367858एन अब जेसी-381812के), 01 नवम्बर 2012

हवलदार अशोक कुमार सेमवाल (सं. 15367272एक्स अब जेसी-381813एम), 01 नवम्बर 2012

हवलदार राम सेवक पाण्डेय (सं. 15368129एक्स अब जेसी-381856एफ), 01 दिसम्बर 2012

हवलदार सतेन्द्र कुमार पाण्डेय (सं. 15368623एन अब जेसी-381857के), 01 दिसम्बर 2012

हवलदार मुकेश चन्द (सं. 15368262ए अब जेसी-381858एम), 01 दिसम्बर 2012

स्थायी नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

हवलदार एल एम एस शाही (सं. 15370445पी अब जेसी-381814पी), 01 नवम्बर 2012

हवलदार डी अशोक कुमार आर (सं. 15378307एच अब जेसी-381815एक्स), 09 नवम्बर 2012

(स्थायी नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार राजू एल (सं. 15374136के अब जेसी-381816ए), 01 नवम्बर 2012

हवलदार टी एस मोति राम (सं. 15371205के अब जेसी-381817एच), 01 नवम्बर 2012



हवलदार अतुल चन्द्र बर्मन (सं. 15372955पी अब जेसी-381818एल),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार परमानंद (सं. 15375295एन अब जेसी-381819एन),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार पदमशेखरन के (सं. 15359130एल अब जेसी-381859पी),  
01 दिसम्बर 2012

हवलदार संजय कुमार हलदर (सं. 15370530एक्स अब जेसी-381860के), 01 दिसम्बर 2012

हवलदार भुवन गुरंग (सं. 15373214के अब जेसी-381861एम),  
01 दिसम्बर 2012

हवलदार मीर सजुल अली (सं. 15373539एक्स अब जेसी-381862पी),  
01 दिसम्बर 2012

स्थाई नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार कौशल किशोर टी (सं. 15362075एल अब जेसी-381820एच), 01 नवम्बर 2012

हवलदार सुगाथन पी के (सं. 15371414एफ अब जेसी-381821एल),  
03 नवम्बर 2012

(स्थाई नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार के पी प्रताप सिंह (सं. 15373026एच अब जेसी-381822एन),  
01 नवम्बर 2012

स्थाई नायब सूबेदार (टेक्नीकल) के रैंक में

हवलदार अनूप कुमार हलदर (सं. 15369212एफ अब जेसी-381863एक्स), 01 दिसम्बर 2012

(स्थाई नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 15358720एक्स अब जेसी-381687एल),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार के रावा साहेब सदाशिव (सं. 15358332ए अब जेसी-381688एन), 01 सितम्बर 2012

हवलदार प्रहलाद सिंह (सं. 15359207एच अब जेसी-381689डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार संतोष कुमार पात्रा (सं. 15368323एम अब जेसी-381754एल), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार नन्दलाल सिंह यादव (सं. 15364161पी अब जेसी-381761एफ), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार बाहुबारा नायक (सं. 15369223एन अब जेसी-381769एन),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार सनप तेजराव नामदेव (सं. 15357580के अब जेसी-381770एच), 18 अक्टूबर 2012

(स्थाई नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार राम प्रमोद सिंह (सं. 15359874डब्ल्यू अब जेसी-381823डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

हवलदार मुकेश कुमार रावत (सं. 15359920ए अब जेसी-381824वाई), 01 नवम्बर 2012

हवलदार डी अशोक रामचन्द्र (सं. 15360103एन अब जेसी-381825एफ), 01 नवम्बर 2012

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 15360034एच अब जेसी-381826के),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार राजीव कुमार (सं. 15368103एच अब जेसी-381828पी),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार जयदीप कुमार (सं. 15368564एम अब जेसी-381829एक्स),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 15363809एन अब जेसी-381830एम),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार समशेर सिंह (सं. 15367450पी अब जेसी-381831पी),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार विरेन्द्र तिवारी (सं. 15367361डब्ल्यू अब जेसी-381832एक्स),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार अमर सिंह (सं. 15362984डब्ल्यू अब जेसी-381833ए),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार मेहमूद डिफोसा (सं. 15368057वाई अब जेसी-381834एच),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 15368293ए अब जेसी-381835एल),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार सोमपाल सिंह (सं. 15364057एफ अब जेसी-381836एन),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15369025एच अब जेसी-381837डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार कुराले शिवाजी बाबू (सं. 15360238पी अब जेसी-381838वाई), 01 नवम्बर 2012

हवलदार अजय कुमार (सं. 15365859एक्स अब जेसी-381839एफ),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार निजारूदीन टी टी (सं. 15369104एक्स अब जेसी-381840डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

हवलदार संजय (सं. 15368158एम अब जेसी-381841वाई),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार अनिल कुमार के एस (सं. 15362906वाई अब जेसी-381842एफ), 01 नवम्बर 2012

हवलदार एस एस भदौरिया (सं. 15368625वाई अब जेसी-381866एल), 01 दिसम्बर 2012

स्थाई नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार प्रेम कुमार एम (सं. 15687370एक्स अब जेसी-381590ए), 17 जुलाई 2012

(स्थाई नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना जरूरत 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार हरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 15359673एक्स अब जेसी-381697पी), 01 सितम्बर 2012

हवलदार राम चन्द्र राय (सं. 15359360वाई अब जेसी-381782एक्स), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार के नरसिमुलु (सं. 15362975पी अब जेसी-381843के), 01 नवम्बर 2012

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 15360576एम अब जेसी-381844एम), 01 नवम्बर 2012

हवलदार प्रकाश निर्मलकर (सं. 15362461एक्स अब जेसी-381845पी), 01 नवम्बर 2012

हवलदार आर पी सिंह (सं. 15362525एक्स अब जेसी-381846एक्स), 01 नवम्बर 2012

हवलदार परमार सोमा भाई के बी (सं. 15359722पी अब जेसी-381847ए), 01 नवम्बर 2012

हवलदार राज कुमार शर्मा (सं. 15363407डब्ल्यू अब जेसी-381848एच), 01 नवम्बर 2012

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 15364314एन अब जेसी-381849एल), 01 नवम्बर 2012

हवलदार मोहम्मद मोबीन (सं. 15364427डब्ल्यू अब जेसी-381850ए), 01 नवम्बर 2012

हवलदार अनोखे लाल (सं. 15364668डब्ल्यू अब जेसी-381851एच), 01 नवम्बर 2012

#### विशेष सूची

#### कोर ऑफ सिग्नल्स

स्थाई नायब सूबेदार [धर्म शिक्षक (ग्रंथी)] के रैंक में

नायब सूबेदार सरवजीत सिंह (सं. 1494580ए अब जेसी-379966एक्स), 30 जनवरी 2010

नायब सूबेदार मनिन्दर सिंह (सं. 15667221एन अब जेसी-380857एक्स), 19 फरवरी 2011

स्थाई नायब सूबेदार [धर्म शिक्षक (पंडित)] के रैंक में

नायब सूबेदार राजेश पैनुल्य (सं. 4087792एक्स अब जेसी-380038एन), 30 जनवरी 2010

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र ठुवल (सं. 4190564पी अब जेसी-380039डब्ल्यू), 15 मई 2010

नायब सूबेदार शिवेन्द्र कांत (जेसी-380944एल), 04 फरवरी 2012

नायब सूबेदार बलेन्द्र राम पाण्डेय (जेसी-380943एच), 04 फरवरी 2012

#### सेना सेवा कोर

#### यांत्रिक परिवहन/पूर्ति

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं

सूबेदार मेजर लिपिक (पिये)

सूबेदार उन्नि क्रिशनन अरेनिल (जेसी-642820एल), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार मेजर लिपिक (एसडी)

सूबेदार श्रीधरन एस (जेसी-642218एल), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार सानल जी नायर (जेसी-640846एफ), 02 जनवरी 2012 \*

सूबेदार सुरेश कुमार के जी (जेसी-642264ए), 02 जनवरी 2012

सूबेदार रजेंद्र सिंह (जेसी-641795एल), 16 जनवरी 2012 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना जरूरत 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एस के टी)

सूबेदार दूध नाथ सिंह (जेसी-641691के), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-641878डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2011 \*

सूबेदार आनंद सिंह (जेसी-641546एम), 01 जनवरी 2012

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना जरूरत 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एम टी)

सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-663872पी), 01 दिसम्बर 2011

सूबेदार नरेन्द्र सिंह धामी (जेसी-663853के), 03 दिसम्बर 2011 \*

सूबेदार शिश राम (जेसी-663151एल), 16 दिसम्बर 2011 \*

सूबेदार राम वकिल (जेसी-663713एक्स), 30 दिसम्बर 2011 \*\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना जरूरत 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

\*\* (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना जरूरत 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी)

दीपक नारंग

अवर सचिव

## सेना शाखा

सं. 145, दिनांक 19 मार्च 2013--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## डोगरा रेजिमेन्ट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजू राम (सं. 3991353के अब जेसी-521573ए),  
20 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 2012 से)

हवलदार राम पाल (सं. 3990958वाई अब जेसी-521574एच),  
24 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार जगतर सिंह (सं. 3991009वाई अब जेसी-521575एल),  
18 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार भूपिन्दर सिंह (सं. 3989559एच अब जेसी-521576एन),  
01 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई 2012 से)

हवलदार विनीत कुमार (सं. 3989575ए अब जेसी-521577डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से)

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 3991393एल अब जेसी-521578वाई),  
20 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अगस्त 2012 से)

हवलदार मनोहर लाल डोगरा (सं. 3990214एन अब जेसी-521579एफ), 06 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अगस्त 2012 से)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3990088एम अब जेसी-521580डब्ल्यू),  
26 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त 2012 से)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 3989773एल अब जेसी-521581वाई),  
25 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2012 से)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3989298ए अब जेसी-521587ए),  
02 अक्टूबर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 3988938एम अब जेसी-521588एच),  
05 अक्टूबर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अगस्त 2012 से)

हवलदार सुदर्शन सिंह (सं. 3988950एन अब जेसी-521589एल),  
25 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2012 से)

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 3990487डब्ल्यू अब जेसी-521590ए),  
08 अक्टूबर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2012 से)

हवलदार सुनील कुमार (सं. 3988984एफ अब जेसी-521591एच),  
28 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2012 से)

हवलदार चैन सिंह (सं. 3989013एच अब जेसी-521592एल),  
27 सितम्बर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2012 से)

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 3990874एल अब जेसी-521593एन),  
03 अक्टूबर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 3992393एक्स अब जेसी-521594डब्ल्यू),  
29 अक्टूबर 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से)

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक बत्तुल करुणा करम (सं. 3992327पी अब जेसी-521582एफ), 01 अगस्त 2012

हवलदार/लिपिक मोरबोयना यनादी (सं. 3992328एक्स अब जेसी-521583के), 01 सितम्बर 2012

हवलदार/लिपिक निर्मल कुमार बिसवाल (सं. 3992330पी अब जेसी-521584एम), 01 सितम्बर 2012

हवलदार/लिपिक संजीव कुमार (सं. 3992339के अब जेसी-521585पी), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार/लिपिक अजय कृष्णा कुशवाहा (सं. 3992410एम अब जेसी-521586एक्स), 01 अक्टूबर 2012

5जीआर (एफएफ)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार नर बहादुर पुन (सं. 5452276एन अब जेसी-618093ए), 01 जुलाई 2012

हवलदार हिम लाल थापा (सं. 5451355डब्ल्यू अब जेसी-618094एच), 01 अगस्त 2012

हवलदार धन बहादुर गुरूंग (सं. 5450955एम अब जेसी-618095एल), 01 अगस्त 2012

हवलदार दुर्गा बहादुर थापा (सं. 5450861पी अब जेसी-618096एन), 01 सितम्बर 2012

हवलदार रजेंद्रा भंडारि (सं. 5451476एक्स अब जेसी-618097डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

हवलदार दोर बहादुर थापा (सं. 5452299पी अब जेसी-618083डब्ल्यू), 01 मई 2012

हवलदार खुम बहादुर थापा (सं. 5450838एफ अब जेसी-618084वाई), 01 मई 2012

हवलदार कमल बहादुर गुरूंग (सं. 5451043ए अब जेसी-618085एफ), 01 मई 2012

हवलदार बम बहादुर गुरूंग (सं. 5451298ए अब जेसी-618086के), 01 मई 2012

हवलदार हर्का बहादुर राइ (सं. 5451090एक्स अब जेसी-618087एम), 01 मई 2012

हवलदार सोम बहादुर गुरूंग (सं. 5452127ए अब जेसी-618088पी), 01 मई 2012

हवलदार मित्रा बहादुर भुजेल (सं. 5452911एन अब जेसी-618089एक्स), 01 जून 2012

हवलदार बल बहादुर पुन (सं. 5451064डब्ल्यू अब जेसी-618090एम), 01 जून 2012

हवलदार प्रेम बहादुर घाले (सं. 5452190पी अब जेसी-618091पी), 01 जून 2012

हवलदार मोहन गुरूंग (सं. 5451149एम अब जेसी-618092एक्स), 24 जुलाई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाएगी)

हवलदार मोहन बहादुर गुरूंग (सं. 5451492पी अब जेसी-618098वाई), 01 सितम्बर 2012

हवलदार लुद्रा सिंह थापा (सं. 5451113एन अब जेसी-618099एफ), 03 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाएगी)

हवलदार यम बहादुर थापा (सं. 5451128डब्ल्यू अब जेसी-618100एल), 12 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाएगी)

हवलदार दुर्बा थापा मगर (सं. 5451269एल अब जेसी-618101एन), 03 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाएगी)

हवलदार कुल बहादुर गुरूंग (सं. 5452115एल अब जेसी-618102डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार (जीडी)/लिपिक के रैंक में

हवलदार बेल बहादुर आले (सं. 5450975ए अब जेसी-618073एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार ग्यनद्रा बहादुर सिंगजलि (सं. 5452061पी अब जेसी-618079एन), 01 मार्च 2012

हवलदार पदम बहादुर (सं. 5452185के अब जेसी-618080एच), 30 मार्च 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक के सीनिवासगन (सं. 13754644ए अब जेसी-618081एल), 17 मई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाएगी)

हवलदार दिल बहादुर गुरूंग (सं. 5450826एम अब जेसी-618082एन), 13 अप्रैल 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाएगी)

कुमोऊ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार नारायण सिंह (सं. 4183569एल अब जेसी-541133एन), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद जोशी (सं. 4182916एम अब जेसी-541134डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार इन्द्रा सिंह बिष्ट (सं. 4182920पी अब जेसी-541135वाई), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 4182974डब्ल्यू अब जेसी-541136एफ),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4182975वाई अब जेसी-541137के),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4183525एन अब जेसी-541138एम),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार दिमन सिंह (सं. 4181992एम अब जेसी-541139पी),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 4184511ए अब जेसी-541140के),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार गोपाल दत्त (सं. 4184440के अब जेसी-541141एम),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार गोबिन्द सिंह (सं. 4184276एम अब जेसी-541142पी),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 4184289के अब जेसी-541143एक्स),  
04 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी गई है)

हवलदार हरीश सिंह सालल (सं. 4182534एच अब  
जेसी-541144ए), 01 अक्टूबर 2012

#### दि राजपूत रेजिमेन्ट

##### नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक राज बहादुर शुक्ला (सं. 2993934डब्ल्यू अब  
जेसी-480887के), 01 मार्च 2012

हवलदार लिपिक राजेश बहादुर सिंह (सं. 2593966वाई अब जेसी-  
480888एम), 01 मार्च 2012

##### नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार श्री राम राज सिंह चौहान (सं. 2988407वाई अब जेसी-  
480853डब्ल्यू), 01 मार्च 2012/05 मई 2011

हवलदार विरेन्द्र सिंह राठौर (सं. 2988795एफ अब जेसी-  
480854वाई), 15 फरवरी 2012/01 सितम्बर 2011

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 2989460डब्ल्यू अब जेसी-480855एफ),  
15 फरवरी 2012/01 अक्टूबर 2011

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 3003007एक्स अब जेसी-  
480856के), 16 फरवरी 2012/01 अक्टूबर 2011

हवलदार हीरा सिंह तनवर (सं. 2989551ए अब जेसी-480857एम),  
27 फरवरी 2012/01 अक्टूबर 2011

हवलदार बनवारी सिंह परमार (सं. 2990157एफ अब जेसी-  
480858पी), 29 फरवरी 2012/09 नवम्बर 2011

हवलदार तनवर सिंह शेखावत (सं. 2990226एम अब जेसी-  
480859एक्स), 09 मार्च 2012/01 दिसम्बर 2011

हवलदार भागवत प्रसाद सिंह (सं. 2990366वाई अब जेसी-  
480863ए), 18 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार खुमान सिंह रावत (सं. 2990403एफ अब जेसी-  
480864एच), 04 अप्रैल 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार प्रेम राज सिंह (सं. 2990396डब्ल्यू अब जेसी-480860एम),  
18 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार राम किशन (सं. 2990411ए अब जेसी-480861पी),  
18 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार धीर सिंह (सं. 2990306के अब जेसी-480883एन),  
20 मार्च 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार उम्मेद सिंह (सं. 2990248एल अब जेसी-480862एक्स),  
07 मार्च 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार राकेश कुमार शर्मा (सं. 2990698एच अब जेसी-  
480882एल), 24 मार्च 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार प्रकाश चन्द्र (सं. 2990420एफ अब जेसी-480865एल),  
18 फरवरी 2012/17 जनवरी 2012

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 2987428एच अब जेसी-480866एन),  
27 फरवरी 2012/31 जनवरी 2012

हवलदार राम बहादुर सिंह (सं. 2990164एक्स अब जेसी-  
480876एक्स), 01 मार्च 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2988154पी अब जेसी-480868वाई),  
16 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार देशराज सिंह (सं. 2990564के अब जेसी-480870डब्ल्यू),  
17 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार आनन्द सिंह राठौर (सं. 2992773ए अब जेसी-  
480874एम), 18 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार मनी राम (सं. 2990319एफ अब जेसी-480871वाई),  
07 मार्च 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 2988539एम अब जेसी-480877ए),  
27 फरवरी 2012/03 फरवरी 2012

हवलदार महेश चन्द्र गुर्जर (सं. 2989219के अब जेसी-480869एफ),  
18 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार अनुज प्रताप सिंह परिहार (सं. 2990202एच अब जेसी-  
480875पी), 28 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 2990205एच अब जेसी-480879एल),  
18 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2992245वाई अब जेसी-480881एच),  
27 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार फतेह सिंह (सं. 2991587एक्स अब जेसी-480872एफ),  
27 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार भूर सिंह (सं. 2992368एक्स अब जेसी-480880ए),  
22 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार रामदेव गुर्जर (सं. 2987893पी अब जेसी-480867डब्ल्यू),  
09 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार नरवरी सिंह (सं. 2987118एक्स अब जेसी-480873के),  
13 मार्च 2012/01 फरवरी 2012

हवलदार साहब सिंह (सं. 2988010एम अब जेसी-480878एच),  
25 फरवरी 2012/02 फरवरी 2012

हवलदार राम हरी सिंह (सं. 2990465एफ अब जेसी-480884डब्ल्यू),  
25 मार्च 2012/09 फरवरी 2012

हवलदार धरम पाल सिंह (सं. 2988209एन अब जेसी-480855वाई),  
30 मार्च 2012/12 फरवरी 2012

हवलदार धूप सिंह गाजर (सं. 2990648एक्स अब जेसी-  
480886एफ), 10 मार्च 2012/20 फरवरी 2012

हवलदार गिरधारी सिंह (सं. 2987173एन अब जेसी-480893के),  
07 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार शौकिन सिंह (सं. 2988626ए अब जेसी-480894ए),  
07 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार बनवारी लाल गुर्जर (सं. 2992005वाई अब जेसी-  
480889पी), 07 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार बिरेन्द्र कुमार (सं. 2992137एम अब जेसी-480890के),  
07 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार कौसिक कान्ती दास (सं. 13619197एन अब जेसी-  
480898डब्ल्यू), 03 मई 2012/01 मार्च 2012

हवलदार मोहम्मद आजीम खान (सं. 2991134एम अब जेसी-  
480897एन), 13 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012

हवलदार मुखराज गुर्जर (सं. 2989379के अब जेसी-480895एच),  
14 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार रविन्द्र कुमार (सं. 2992436एल अब जेसी-480901एल),  
24 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार हंस राज गुर्जर (सं. 2989403पी अब जेसी-480896एल),  
20 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार कृशन चन्द्र (सं. 2989353पी अब जेसी-480891एम),  
01 अप्रैल 2012/01 मार्च 2012

हवलदार चमन सिंह (सं. 2993415एफ अब जेसी-480900एच),  
21 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार सुबे सिंह (सं. 2989362डब्ल्यू अब जेसी-480892पी),  
29 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार बिमन चन्द्र परमानिक (सं. 2990208के अब जेसी-  
480899वाई), 02 मार्च 2012/01 मार्च 2012

हवलदार हाकम सिंह (सं. 2992175एच अब जेसी-480902एन),  
06 जून 2012/13 मार्च 2012

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक भुवन चन्द्र (सं. 2987856एफ अब जेसी-  
480813पी), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार लिपिक बाबू लाल (सं. 2987954एफ अब जेसी-  
480814एक्स), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार धीरज सिंह (सं. 2988262वाई अब जेसी-480804एन),  
14 दिसम्बर 2011/02 अक्टूबर 2011

हवलदार रामबीर सिंह भदोरिया (सं. 2989722एफ अब जेसी-  
480824एफ), 14 फरवरी 2012/05 अक्टूबर 2011

हवलदार नन्द सिंह (सं. 2989762एच अब जेसी-480825के),  
13 अक्टूबर 2011

हवलदार विनोद कुमार (सं. 2990343एक्स अब जेसी-  
480826एम), 01 नवम्बर 2011

हवलदार इन्द्रा सिंह (सं. 2988314के अब जेसी-480805डब्ल्यू),  
28 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011

हवलदार इन्द्रा जीत सिंह (सं. 2989880डब्ल्यू अब जेसी-  
480806वाई), 28 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011

हवलदार शिवेन्द्रा सिंह परिहार (सं. 2989764एन अब जेसी-  
480827पी), 19 फरवरी 2012/01 नवम्बर 2011

हवलदार पुष्पेन्द्रा सिंह (सं. 2989901एफ अब जेसी-480828एक्स),  
07 मार्च 2011/01 नवम्बर 2011

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2988474के अब जेसी-480807एफ),  
07 दिसम्बर 2012/13 नवम्बर 2011

हवलदार अदया प्रसाद (सं. 2987308के अब जेसी-480808के),  
21 दिसम्बर 2011/17 नवम्बर 2011

हवलदार राम विलाश सिंह कुशवाह (सं. 2989713ए अब जेसी-  
480809एम), 16 दिसम्बर 2011/20 नवम्बर 2011

हवलदार प्रभु सिंह शेखावत (सं. 2990406पी अब जेसी-  
480810एफ), 24 दिसम्बर 2011/27 नवम्बर 2011

हवलदार विजय सिंह (सं. 2989801डब्ल्यू अब जेसी-  
480811के), 24 दिसम्बर 2011/27 नवम्बर 2011

हवलदार सुनिल सिंह चौहान (सं. 2988405एन अब जेसी-  
480812एम), 27 दिसम्बर 2011/28 नवम्बर 2011

हवलदार सुवे सिंह (सं. 2990895एल अब जेसी-480815ए),  
01 दिसम्बर 2011

हवलदार धरम बीर (सं. 2989651एल अब जेसी-480818एन),  
23 मई 2011/06 जनवरी 2011

हवलदार भानु प्रताप सिंह (सं. 2988881एम अब जेसी-480822डब्ल्यू),  
05 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011

हवलदार ब्रह्मजीत सिंह (सं. 2989094के अब जेसी-480823वाई),  
05 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011

हवलदार देवी सिंह राठौर (सं. 2990198एल अब जेसी-  
480819डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 2885259वाई अब जेसी-  
480817एल), 23 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011

हवलदार बीटू सिंह तोमर (सं. 2993830एच अब जेसी-480846ए),  
27 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार अमलेन्दु मंडल (सं. 2992278एफ अब जेसी-480816एच),  
21 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011

हवलदार पठान फिरोज खान (सं. 2991081वाई अब जेसी-  
480829ए), 04 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011

हवलदार इसमाइल खान (सं. 2991102के अब जेसी-480837वाई),  
04 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार सुसान्त मंडल (सं. 2990721एल अब जेसी-480830पी),  
11 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011

हवलदार असीम कुमार बसु (सं. 2991013एल अब जेसी-  
480831एक्स), 11 फरवरी 2012/01 दिसम्बर 2011

हवलदार राजकुमार मंडल (सं. 13619171वाई अब जेसी-  
480833एच), 11 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 2990196ए अब जेसी-  
480820एल), 24 दिसम्बर 2011/04 दिसम्बर 2011

हवलदार बिरेन्द्रा सिंह (सं. 2988300के अब जेसी-480821एन),  
24 दिसम्बर 2011/04 दिसम्बर 2011

हवलदार रविन्द्र कुमार (सं. 2989805एम अब जेसी-480823ए),  
18 जनवरी 2012/20 दिसम्बर 2011

हवलदार विजय सिंह (सं. 2990625डब्ल्यू अब जेसी-480841एच),  
01 जनवरी 2012

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 2993354पी अब जेसी-  
480847एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार भनवर सिंह राठौर (सं. 2990201ए अब जेसी-  
480844पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार श्री छोब सिंह तोमर (सं. 2988143एच अब जेसी-  
480839के), 01 जनवरी 2012

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2989909एन अब जेसी-480836डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2012

हवलदार प्रेम सिंह भदोरिया (सं. 13618655एम अब जेसी-  
480845एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार राम नरेश गुर्जर (सं. 2989371के अब जेसी-  
480838एफ), 03 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार समय सिंह गुर्जर (सं. 2989324ए अब जेसी-  
480835एन), 06 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार विनोद कुमार (सं. 2992638वाई अब जेसी-480850एन),  
07 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार कंवर सिंह (सं. 2992907एन अब जेसी-480851एल),  
07 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 2988905एल अब जेसी-480848एल),  
18 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार चमन सिंह (सं. 2990200एक्स अब जेसी-480840वाई),  
11 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार कृपा शंकर पाण्डे (सं. 2992204एम अब जेसी-  
480834एल), 11 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार दिलीप कुमार सिंह (सं. 2988422एन अब जेसी-  
480842के), 17 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार महेश (सं. 2992813डब्ल्यू अब जेसी-480849एन),  
18 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार आदित्या कुमार घोष (सं. 13619009एफ अब जेसी-  
480843एम), 03 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012

हवलदार अनिल कुमार (सं. 2991875के अब जेसी-480852एन),  
17 मार्च 2012/01 जनवरी 2012

#### महार रेजिमेन्ट

#### नायब सूबेदार के रैंक में

सीएचएम धनंजय अशोक श्रिंग (सं. 4562143के अब जेसी-  
570838एच), 28 फरवरी 2012@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 जून 2011)

हवलदार हजारे संजय क्रिशंत (सं. 4562266डब्ल्यू अब जेसी-  
570839एल), 13 मार्च 2012#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 जुलाई 2011)

सीएचएम अजय प्रह्लाद जाधव (सं. 4562272के अब जेसी-  
570840ए), 04 मार्च 2012\$

सीएचएम काम्बले तुकाराम यल्लाप्पा (सं. 4562317वाई अब जेसी-  
570841एच), 27 फरवरी 2012\$

हवलदार देनेश्वर प्रसाद (सं. 4562829एल अब जेसी-570842एल),  
04 मार्च 2012\$

हवलदार काम्बले सुभाश क्रिष्ण (सं. 4562943एच अब जेसी-  
570843एन), 27 फरवरी 2012\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 अक्टूबर 2011)

हवलदार कुंदन सिंह (सं. 4562053एच अब जेसी-570844डब्ल्यू),  
08 अप्रैल 2012\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 अक्टूबर 2011)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 4562433एफ अब जेसी-570845वाई),  
01 दिसम्बर 2011

हवलदार लिपिक (एसडी) मिर्नल कांति कुंडु (सं. 4561683डब्ल्यू  
अब जेसी-570846एफ), 30 मई 2012^

हवलदार जितेंद्र कुमार (सं. 4560922एन अब जेसी-570847के),  
01 मई 2012^

^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2012)

हवलदार ओगले तुकाराम सुदाम (सं. 4566164एक्स अब जेसी-  
570848एम), 01 मई 2012&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 जनवरी 2012)

हवलदार सुर्यावंशि लक्ष्मन गोविंद (सं. 4562524एल अब जेसी-  
570849पी), 22 फरवरी 2012\*

\*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 जनवरी 2012)

सीएचएम अनंद सिंह बोरा (सं. 4562754वाई अब जेसी-570850के),  
14 अप्रैल 2012@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2012)

हवलदार सरोदे केदार रामा (सं. 4562176पी अब जेसी-570851एम),  
29 मई 2012##

हवलदार अतुल कुमार घोश (सं. 4562779एल अब जेसी-  
570852पी), 04 जून 2012##

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 4562780ए अब जेसी-570853एक्स),  
12 मार्च 2012###

हवलदार जस्वंत सिंह (सं. 4561750डब्ल्यू अब जेसी-570854ए),  
13 अप्रैल 2012##

हवलदार नित्या नंद सिंह (सं. 4562751एल अब जेसी-570855एच),  
01 मार्च 2012##

हवलदार बाबुलाल कुशवाहा (सं. 13618451ए अब जेसी-  
570856एल), 22 मार्च 2012##

सीएचएम बुरुते शिवदास नामदेव (सं. 4561898पी अब जेसी-  
570857एन), 22 मार्च 2012##

हवलदार दान सिंह (सं. 4563746एम अब जेसी-570858डब्ल्यू),  
02 अप्रैल 2012##

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 4563151पी अब जेसी-570859वाई),  
01 मई 2012##

सीक्यूएमएच गवलि भीमराव रामा (सं. 4563680एफ अब जेसी-  
570860एन), 02 अप्रैल 2012##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2012)

हवलदार शैलेन्द्रा कुमार (सं. 4560690ए अब जेसी-570861डब्ल्यू),  
08 अप्रैल 2012\$\$

सीक्यूएमएच मांगे लाल (सं. 4561017एल अब जेसी-570862वाई),  
08 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 4561663एच अब जेसी-570863एफ),  
08 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार शेर सिंह महार (सं. 4561762एल अब जेसी-570864के),  
08 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 4561784के अब जेसी-570865एम),  
30 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4561976एफ अब जेसी-570866पी),  
30 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार जगपाल सिंह (सं. 4562638डब्ल्यू अब जेसी-  
570867एक्स), 01 मई 2012\$\$

हवलदार विनोद सिंह (सं. 4562758पी अब जेसी-570868ए),  
30 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार असित बरेन दास (सं. 4562794ए अब जेसी-570869एच),  
01 अप्रैल 2012

हवलदार गुर्मेल सिंह (सं. 4562826एक्स अब जेसी-570870एक्स),  
01 अप्रैल 2012

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 4562281एल अब जेसी-570871ए),  
13 मई 2012\$\$

सीक्यूएमएच खराटे कृष्ण सुखदेव (सं. 4562486ए अब जेसी-  
570872एच), 02 मई 2012\$\$

हवलदार अशा राम (सं. 4562840डब्ल्यू अब जेसी-570873एल),  
02 अप्रैल 2012\$\$

सीएचएम शम्भु सिंह (सं. 4563711डब्ल्यू अब जेसी-570874एन),  
01 अप्रैल 2012

हवलदार रमा कांत (सं. 4564399एल अब जेसी-570875डब्ल्यू),  
03 मई 2012\$\$

हवलदार सुमेर सिंह भाटी (सं. 4564415एक्स अब  
जेसी-570876वाई), 20 अप्रैल 2012\$\$

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4564438वाई अब जेसी-570877एफ),  
19 अप्रैल 2012\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2012)

हवलदार अरविन्द सिंह यादव (सं. 4563598एम अब जेसी-  
570878के), 17 अप्रैल 2012

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 4562847एन अब जेसी-570879एम),  
02 मई 2012%%

%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 18 अप्रैल 2012)

हवलदार संजीव कुमार (सं. 4562890पी अब जेसी-570880एफ),  
02 मई 2012^^



हवलदार गायकवाड दत्तात्रया सम्भाजी (सं. 4562858ए अब जेसी-570881के), 02 जून 2012^^

हवलदार सुमित कुमार महत (सं. 4564521डब्ल्यू अब जेसी-570882एम), 01 मई 2012

हवलदार बसंत कुमार (सं. 4564621एफ अब जेसी-570883पी), 01 मई 2012

^^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2012)

हवलदार चन्द्र पाल सिंह (सं. 4562906पी अब जेसी-570884एक्स), 24 मई 2012&&

&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 13 मई 2012)

हवलदार/लिपिक (एसडी) अवाले विश्वास केरबा (सं. 4562450एफ अब जेसी-570885ए), 02 जून 2012\*\*

हवलदार कंवर रविन्द्र (सं. 4562256एम अब जेसी-570886एच), 01 जून 2012

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 4562568एच अब जेसी-570887एल), 01 जून 2012

हवलदार जतिन्द्र सिंह (सं. 4563028डब्ल्यू अब जेसी-570888एन), 01 जून 2012

\*\* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2012)

हवलदार पुरन सिंह (सं. 4562951एफ अब जेसी-570889डब्ल्यू), 11 जून 2012@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 जून 2012)

हवलदार/लिपिक (एसडी) शौउद खान (सं. 2685109वाई अब जेसी-570890एल), 01 जुलाई 2012

हवलदार/लिपिक (एसडी) खटल अंकुश आनंद राव (सं. 4562453पी अब जेसी-570891एन), 01 जुलाई 2012

हवलदार/लिपिक (एसडी) मनोज कुमार पाण्डे (सं. 2685019एक्स अब जेसी-570892डब्ल्यू), 02 जुलाई 2012###

### (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 जून 2012)

हवलदार सरवाडे बालासाहेब सोपान राव (सं. 4562391ए अब जेसी-570894एफ), 22 जून 2012@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 27 नवम्बर 2011)

हवलदार तुनडारे नरसिंग बाबुराव (सं. 4562859एच अब जेसी-570895के), 22 जून 2012#

# (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2011)

हवलदार बरंदावाल किशोर देव सिंह (सं. 4562872एम अब जेसी-570896एम), 05 जुलाई 2012\$

\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2012)

हवलदार सुशांता पठनायक (सं. 4563993ए अब जेसी-570897पी), 10 फरवरी 2012%

% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2012)

सीक्यूएमएच बोयिरि नागेश्वरा राव (सं. 4562359एल अब जेसी-570898एक्स), 23 मार्च 2012^

^ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 27 फरवरी 2012)

सीएचएम राम किष्ण (सं. 4562917एफ अब जेसी-570899ए), 23 मार्च 2012&

हवलदार ललीत मोहन सिंह सेठी (सं. 4562703एल अब जेसी-570900के), 31 मई 2012&

हवलदार लक्ष्मण सिंह दिगरी (सं. 4563633के अब जेसी-570901एम), 24 मार्च 2012&

& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2012)

हवलदार पगारे सुनिल कारभारी (सं. 4562870एफ अब जेसी-570902पी), 27 जून 2012\*

\* (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 मई 2012)

हवलदार विजेन्द्रा सिंह (सं. 4560748एम अब जेसी-570903एक्स), 03 जुलाई 2012@@

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 4561982पी अब जेसी-570904ए), 03 जुलाई 2012@@

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 4562112के अब जेसी-570905एच), 03 जुलाई 2012@@

हवलदार गजेन्द्र सिंह तोमर (सं. 4562404एम अब जेसी-570906एल), 03 जुलाई 2012@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 जून 2012)

हवलदार नरेन्द्रा पाल बिष्ट (सं. 4562757एम अब जेसी-570907एन), 10 जुलाई 2012##

## (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2012)

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अवतार सिंह (सं. 2683604वाई अब जेसी-451428एच), 01 जून 2012

हवलदार अमर सिंह (सं. 2685219एन अब जेसी-451429एल), 01 जुलाई 2012

हवलदार इमाम अली खान (सं. 2683314एफ अब जेसी-451430ए), 07 जुलाई 2012

हवलदार हरी सिंह राजपूत (सं. 2685221एल अब जेसी-451431एच), 01 अगस्त 2012

हवलदार भूपिन्द्र सिंह (सं. 2682200के अब जेसी-451432एल),  
21 अगस्त 2012

हवलदार नत्थू सिंह (सं. 2683059ए अब जेसी-451433एन),  
22 अगस्त 2012

हवलदार शिम्भू दयाल जाट (सं. 2683265के अब जेसी-451434डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 2683267पी अब जेसी-451435वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार सोरन सिंह (सं. 8033229डब्ल्यू अब जेसी-451436एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 2685946एल अब जेसी-451437के),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार देव कुमार यादव (सं. 2683301के अब जेसी-451438एम),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार हेमन्त सिंह भदौरिया (सं. 2686021एफ अब जेसी-451439पी), 01 सितम्बर 2012

हवलदार रामाश्रेय सिंह (सं. 2685434वाई अब जेसी-451440के),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार जुगल सिंह राठौर (सं. 2685246एक्स अब जेसी-451441एम), 01 सितम्बर 2012

हवलदार योगिन्द्र कुमार (सं. 2685851एल अब जेसी-451442पी),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 2682940वाई अब जेसी-451443एक्स),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार संजय कुमार (सं. 2687354ए अब जेसी-451444ए),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार बलबीर सिंह शेखावत (सं. 2687396एम अब जेसी-451445एच), 01 सितम्बर 2012

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 2683746डब्ल्यू अब जेसी-451446एल),  
02 सितम्बर 2012

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 2683996एक्स अब जेसी-451447एन),  
03 सितम्बर 2012

हवलदार कुदून सिंह (सं. 2683614एच अब जेसी-451448डब्ल्यू),  
24 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक परसे सुधाकर सोपान राव (सं. 2684258ए अब जेसी-451449वाई), 01 सितम्बर 2012

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दरबार सिंह (सं. 3389619पी अब जेसी-500501एच),  
01 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012)

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 3391529एम अब जेसी-500502एल),  
01 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012)

हवलदार बलिहार सिंह (सं. 3391753वाई अब जेसी-500503एन),  
01 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012)

हवलदार सलविन्दर सिंह (सं. 3390546ए अब जेसी-500504डब्ल्यू),  
03 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2012)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3390266एम अब जेसी-500505वाई),  
26 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2012)

हवलदार गुलज़ार सिंह (सं. 3390162एल अब जेसी-500506एफ),  
17 सितम्बर 2012

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 3390387एन अब जेसी-500507एन),  
17 सितम्बर 2012

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 3390677एल अब जेसी-500508एम),  
11 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2012)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3390876वाई अब जेसी-500509पी),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार दिदार सिंह (सं. 3390863एफ अब जेसी-500510के),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 3391366के अब जेसी-500511एम),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार परगत सिंह (सं. 3392070एक्स अब जेसी-500512पी),  
08 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012)

हवलदार किन्दरपाल सिंह (सं. 3392113एफ अब जेसी-500513एक्स),  
15 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2012)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 3391782एन अब जेसी-500514ए),  
01 नवम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2012)

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 3392727के अब जेसी-500515एच),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार निरमलजीत सिंह (सं. 3393472एफ अब जेसी-500516एल),  
01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार (लिपिक) भुपिन्दरा सिंह राठौर (सं. 3391802डब्ल्यू अब  
जेसी-500517एन), 01 नवम्बर 2012

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार हरबंस लाल (सं. 4359839ए अब जेसी-581551एल),  
01 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 13753377एक्स अब जेसी-581552एन),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13754549एन अब जेसी-581553डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13754664एन अब जेसी-581554वाई),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार मोहम्मद शफीक (सं. 13754719एम अब  
जेसी-581555एफ), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार रमेश लाल मल्होत्रा (सं. 13753078वाई अब  
जेसी-581556के), 17 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार हुकम चन्द (सं. 13751562एम अब जेसी-581557एम),  
12 अक्टूबर 2012\*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
08 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 13754138पी अब जेसी-581558पी),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार रविन्द्रा सिंह (सं. 13754816के अब जेसी-581559एक्स),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार विजय कुमार अले (सं. 13753511एक्स अब  
जेसी-581560एम), 01 नवम्बर 2012

हवलदार राजु थापा (सं. 13753512ए अब जेसी-581561पी),  
01 नवम्बर 2012

नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) कमलेश कुमार (सं. 9096464ए अब  
जेसी-594127एफ), 05 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 9098360डब्ल्यू अब जेसी-594128के),  
26 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 03 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार लाल हुसैन (सं. 9094956ए अब जेसी-594129एम),  
04 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार यश पॉल सिंह (सं. 9095681के अब जेसी-594130एफ),  
04 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार रोमेश कुमार (सं. 9094330एच अब जेसी-594131के),  
09 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद रफीक (सं. 9094540एच अब जेसी-594132एम),  
03 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद फारूक (सं. 9094854के अब जेसी-594133पी),  
08 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुरिन्दर पाल सिंह (सं. 9089330वाई अब  
जेसी-594134एक्स), 15 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 09 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार पर्शोत्तम चौधरी (सं. 9096644एच अब जेसी-594135ए),  
24 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार कबीर हुसैन (सं. 9096936एम अब जेसी-594136एच),  
24 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार उजागर राम (सं. 9089089एक्स अब जेसी-594137एल),  
23 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार दविंदर लाल (सं. 9096462पी अब जेसी-594138एन),  
29 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार गुलाम मोहम्मद (सं. 9094902एम अब जेसी-594139डब्ल्यू), 29 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार बोध राज (सं. 9089627ए अब जेसी-594140एल),  
11 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार थोरु राम (सं. 9094258एक्स अब जेसी-594141एन),  
15 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 07 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) क्रिशन कुमार (सं. 9096001एल अब जेसी-594142डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार बचन लाल (सं. 9094334वाई अब जेसी-594143वाई),  
15 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9089776एन अब जेसी-594144एफ),  
22 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)

हवलदार अंचल सिंह (सं. 9094224के अब जेसी-594145के),  
22 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार जहांगीर अहमद (सं. 9095498एफ अब जेसी-594146एम),  
05 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश पॉल (सं. 9094477वाई अब जेसी-594147पी),  
17 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 9094482के अब जेसी-594148एक्स),  
17 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार रियाज़ अहमद खान (सं. 9094737वाई अब जेसी-594149ए),  
18 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार रूप लाल (सं. 9089424डब्ल्यू अब जेसी-594150पी),  
17 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद रयाज़ (सं. 9094613के अब जेसी-594151एक्स),  
17 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार नेक राम (सं. 9095547वाई अब जेसी-594152ए), 10 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार खलील अहमद (सं. 9096425एफ अब जेसी-594153एच),  
15 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार जावेद इक़्वाल (सं. 9096625एफ अब जेसी-594154एल),  
30 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद रफीक (सं. 9094196एच अब जेसी-594155एन),  
01 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार पयार सिंह (सं. 9088699एक्स अब जेसी-594156डब्ल्यू),  
15 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 9089707एक्स अब जेसी-594157वाई),  
01 अक्टूबर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 9088160ए अब जेसी-594158एफ),  
28 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 17 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार बनारसी लाल (सं. 9089155पी अब जेसी-594159के),  
17 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 16 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) अजय कुमार (सं. 9095951डब्ल्यू अब जेसी-594099ए), 26 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) अवतार सिंह (सं. 9095936वाई अब जेसी-594100के), 16 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) प्रदीपन इ (सं. 9096002एन अब जेसी-594101एम), 03 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद सैद (सं. 9089274एल अब जेसी-594102पी),  
08 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 29 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार रंगेज सिंह (सं. 9094787के अब जेसी-594103एक्स),  
12 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

हवलदार उपजिंदर सिंह जसरोटिया (सं. 9089825एल अब जेसी-594104ए), 02 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

हवलदार अलताफ अहमद खान (सं. 9094843एक्स अब जेसी-594105एच), 08 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

हवलदार कुलभुशन (सं. 9089282के अब जेसी-594106एल),  
31 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 मई 2012 से दी जाती है)

हवलदार अमीर चन्द (सं. 9094260पी अब जेसी-594107एन),  
27 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार शाम लाल (सं. 9089253पी अब जेसी-594108डब्ल्यू),  
18 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार जग पॉल सिंह (सं. 9089309डब्ल्यू अब जेसी-594109वाई),  
18 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार फरीद अहमद (सं. 9098877एफ अब जेसी-594110एन),  
22 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 9094243पी अब जेसी-594111डब्ल्यू),  
20 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 9094324पी अब जेसी-594112डब्ल्यू),  
30 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार सतीश पाण्डेय (सं. 15701022के अब जेसी-594113एफ),  
04 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता 04 फरवरी 2012 से दी जाती है)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 4469249के अब जेसी-510212एफ),  
19 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 2012 से दी जायेगी]

हवलदार परविन्द सिंह (सं. 4469636वाई अब जेसी-510213के),  
27 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी जायेगी]

हवलदार लाभ सिंह (सं. 4470819एफ अब जेसी-510214एम),  
26 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2012 से दी जायेगी]

हवलदार भजन सिंह (सं. 4468511पी अब जेसी-510215पी),  
01 अगस्त 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2012 से दी जायेगी]

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4470712एम अब जेसी-510216एक्स),  
15 सितम्बर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2012 से दी जायेगी]

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 4469283के अब जेसी-510217ए),  
01 जून 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2012 से दी जायेगी]

हवलदार छुहार सिंह (सं. 4468520डब्ल्यू अब जेसी-510218एच),  
23 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी]

हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 4471448डब्ल्यू अब जेसी-510219एल), 26 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी]

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 4474375ए अब जेसी-510220ए),  
23 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जून 2012 से दी जायेगी]

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4470540एच अब जेसी-510221एच),  
12 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जून 2012 से दी जायेगी]

हवलदार गुरदित्त सिंह (सं. 4472081एन अब जेसी-510222एल),  
19 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2012 से दी जायेगी]

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 4471560एच अब जेसी-510224डब्ल्यू),  
15 अगस्त 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जुलाई 2012 से दी जायेगी]

हवलदार बुट्ट सिंह (सं. 4468856डब्ल्यू अब जेसी-510225वाई),  
01 अगस्त 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जुलाई 2012 से दी जायेगी]

हवलदार हरिकरिशन सिंह (सं. 4470602एक्स अब जेसी-510227के),  
02 सितम्बर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी]

हवलदार कशमीर सिंह (सं. 4469663एच अब जेसी-510228एम),  
30 सितम्बर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2012 से दी जायेगी]

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 4468897ए अब जेसी-510230के),  
28 सितम्बर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी]

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4470726एम अब जेसी-510231एम),  
17 सितम्बर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी]

नायब सूबेदार (क्लर्क) एसडी के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) गोस्वामी बाबुगीरी शम्भुगीरी (सं. 4469536एन अब जेसी- 510223एन), 01 जुलाई 2012\*

\*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी]

हवलदार (क्लर्क) जगबीर सिंह (सं. 4469550ए अब जेसी-510226एफ), 01 अगस्त 2012\*

\*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी]

हवलदार (क्लर्क) चितरंजन मिशरा (सं. 4469611एम अब जेसी-510229पी), 01 सितम्बर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी]

हवलदार (क्लर्क) अधक मछिन्दरा राजा राम (सं. 4469613एक्स अब जेसी- 510232पी), 09 अक्टूबर 2012\*

\*[नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी]

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लिपिक एम डी साबिर अली गाजी (सं. 2886602एच अब जेसी- 471096एल), 04 जुलाई 2012/01 अगस्त 2011\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2011 से दी जायेगी)

हवलदार इम्तियाज़ अहमद (सं. 2889453एल अब जेसी-471097एन), 02 सितम्बर 2012/01 जनवरी 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मदन सिंह (सं. 2885618एफ अब जेसी-471098डब्ल्यू),  
28 जुलाई 2012/04 अप्रैल 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 2886415के अब जेसी-471099वाई),  
28 जुलाई 2012/04 अप्रैल 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार किशन सिंह (सं. 2888554एम अब जेसी-471100एच),  
28 जुलाई 2012/01 मई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 2888786एल अब जेसी-471101एल),  
28 जुलाई 2012/01 जून 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार बुद्धिमान सिंह (सं. 2886344एन अब जेसी-471102एन),  
31 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सोहन लाल (सं. 2887387पी अब जेसी-471103डब्ल्यू),  
20 अगस्त 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार बलराम सिंह (सं. 2887989एच अब जेसी-471104वाई),  
31 अगस्त 2012/22 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 2887182ए अब जेसी-471105एफ),  
31 अगस्त 2012/29 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार उपेन्द्र कुमार (सं. 2885104के अब जेसी-471106के),  
23 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार कमलेश सिंह (सं. 2887126एफ अब जेसी-471107एम),  
28 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 2888445ए अब जेसी-471108पी),  
09 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार क्रिशना स्वरूप (सं. 2886610एफ अब जेसी-471109एक्स),  
25 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्रा सिंह (सं. 2888533डब्ल्यू अब जेसी-471110एम),  
09 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश सिंह तोमर (सं. 2886675पी अब जेसी-471111पी),  
25 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 2889319ए अब जेसी-471112एक्स),  
04 सितम्बर 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार जगबीर (सं. 2885499डब्ल्यू अब जेसी-471113ए),  
20 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मंगत सिंह (सं. 2887019ए अब जेसी-471114एच),  
20 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक रेनवत दान चारन (सं. 2888619पी अब जेसी-  
471115एल), 01 सितम्बर 2012

हवलदार बाल सिंह (सं. 2885136एम अब जेसी-471116एन),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 2885961के अब जेसी-471117डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार शेर सिंह (सं. 2888135पी अब जेसी-471118वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार मेहर प्रताप सिंह (सं. 2891245पी अब जेसी-471119एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार सुभाष चन्द्रा (सं. 2893049एन अब जेसी-471120डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2012

#### जाट रेजिमेन्ट

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सत्यवान सिंह (सं. 4074380एक्स अब जेसी-490869पी),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार मुकेश सिंह (सं. 3181475वाई अब जेसी-490870के),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार महेश कुमार पायल (सं. 3188614ए अब  
जेसी-490871एम), 01 नवम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार भीरों राम (सं. 3184245डब्ल्यू अब जेसी-490872पी),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 3184416एक्स अब जेसी-490873एक्स),  
25 अक्टूबर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल सिंह चौधरी (सं. 3185275ए अब जेसी-490874ए),  
01 अक्टूबर 2012

हवलदार प्रवीण कुमार (सं. 3193481वाई अब जेसी-490875एच),  
08 अक्टूबर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 3184422एल अब जेसी-490876एल),  
06 नवम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 3191276वाई अब जेसी-490877एन),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3184706पी अब जेसी-490878डब्ल्यू),  
11 नवम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार जगवीर सिंह (सं. 3185588वाई अब जेसी-490879वाई),  
01 नवम्बर 2012

हवलदार शिवलाल (सं. 3184709एच अब जेसी-490880एन),  
16 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक फारूक अहमद (सं. 3183969एफ अब  
जेसी-490881डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार पूरण सिंह पंवार (सं. 4071517एन अब जेसी-531273एम),  
16 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4072082एच अब जेसी-521274पी),  
26 सितम्बर 2012/02 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार करण सिंह (सं. 4071939वाई अब जेसी-531275एक्स),  
26 सितम्बर 2012/02 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार अजय बर्धन (सं. 3391167डब्ल्यू अब जेसी-531276ए),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4071999एन अब जेसी-531277एच),  
05 अक्टूबर 2012/01 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार खीमा नन्द (सं. 4074055एक्स अब जेसी-531278एल),  
26 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश प्रसाद (सं. 4072199एफ अब जेसी-531279एन),  
23 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 4070630डब्ल्यू अब जेसी-531280एच),  
12 अक्टूबर 2012/14 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार पुरषोत्तम दत्त रतूरी (सं. 4071386एन अब  
जेसी-531281एल), 10 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णा सिंह (सं. 4071713एन अब जेसी-531282एन),  
08 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजीव सिंह (सं. 4073637एल अब जेसी-531283डब्ल्यू),  
12 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तरिहल्कर उत्तमराव परशराम (सं. 2788887के अब  
जेसी-460587एफ), 14 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार वसंत नाईक (सं. 2790449ए अब जेसी-460588के),  
01 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार पुंडे रमेश ज्ञानेश्वर (सं. 2792066एम अब  
जेसी-460589एम), 31 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 22 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार किशोर गुरव (सं. 2787117एल अब जेसी-460590एफ),  
15 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार गायकवाड आबासाहेब बापुराव (सं. 2789958एम अब  
जेसी-460591के), 01 अक्टूबर 2012

हवलदार गांगुर्डे प्रकाश मोठाभाउ (सं. 2792056एच अब  
जेसी-460592एम), 01 नवम्बर 2012\*



## नायब सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

हवलदार लिपिक (एसडी) जाधव सुदाम हिरासिंग (सं. 15362449डब्ल्यू अब जेसी-460586वाई), 04 अक्टूबर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार तानाजी पाटील (सं. 2790784के अब जेसी-460593पी), 09 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार डांगे दत्तात्रय विठ्ठल (सं. 2791240एफ अब जेसी-460594एक्स), 06 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार ढोकणे संतोष अदिनाथ (सं. 2790229डब्ल्यू अब जेसी-460595ए), 06 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

हवलदार गुंड संभाजी रामचंद्रा (सं. 2789764के अब जेसी-460598एन), 01 नवम्बर 2012

हवलदार मांगले दिनकर मारुती (सं. 2790691पी अब जेसी-460599डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2012

हवलदार बाबर तानाजी विलास (सं. 2790837एक्स अब जेसी-460600ए), 04 नवम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

## नायब सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

हवलदार लिपिक (एसडी) गिरिश कुमार के (सं. 2786851एम अब जेसी-460596एच), 01 नवम्बर 2012

हवलदार लिपिक (एसडी) सुजित कुमार सहा (सं. 2786854ए अब जेसी-460597एल), 01 नवम्बर 2012

## बिहार रेंजिमेन्ट

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 4268794एक्स अब जेसी-560805के); 12 अक्टूबर 2012/01 अप्रैल 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार सुचित कुमार शर्मा (सं. 4268330ए अब जेसी-560806एम), 12 अक्टूबर 2012/10 अप्रैल 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 4270788एच अब जेसी-560807पी), 11 सितम्बर 2012/01 जून 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार सोम्रा उर्दोव (सं. 4270695एन अब जेसी-560808एक्स), 12 अक्टूबर 2012/01 जून 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार सिद्धि बनरा (सं. 4271438एच अब जेसी-560809ए), 12 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार पिताम्बर बेसरा (सं. 4269558एच अब जेसी-560810पी), 25 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार मुरली कैका (सं. 4271507एन अब जेसी-560811एक्स), 05 अक्टूबर 2012/12 सितम्बर 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार रूप लाल (सं. 4270421एच अब जेसी-560812ए), 03 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012 [ज्येष्ठता]×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

सुभद्रत करमाकर  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th April 2013

## ARMY BRANCH

No. 144, dated 18th March 2013—The President is pleased to make the following promotion/appointments :—

## REGULAR ARMY

## CORPS OF SIGNALS

To be Subs Sub Maj (F of S)

Sub Bikram Singh Khatri (JC-369896W), 04 Nov 2011

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2011 without effect on pay and allowances)

Sub SN Pandey (JC-369897Y), 01 Dec 2011

Sub Tarun Kumar Bhadra (JC-369267Y), 09 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub Maj (Op Cipher)

Sub Brajesh Kumar (JC-375850K), 01 Dec 2011

Sub Susanta Kumar Das (JC-375491F), 11 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Padma Kumar DS (JC-374786L), 01 Nov 2011

Sub Ram Singh (JC-374792Y), 01 Dec 2011

Sub Dinesh Chandra Neolia (JC-374794K), 01 Dec 2011

Sub Dharambir Singh (JC-374795M), 01 Dec 2011

Sub Suresh Kumar (JC-374799H), 02 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Sub Chandra Bhan (JC-374803A), 01 Dec 2011

Sub Pankaj Kumar Singh (JC-374832P), 01 Dec 2011

Sub RK Singh (JC-374833X), 01 Dec 2011

Sub Sant Ram Saini (JC-373019A), 01 Jan 2012

Sub Shiv Kesh Dubey (JC-373030Y), 01 Jan 2012

To be Subs Sub (YOS)

Nb Sub Saji George (JC-376617H), 13 Sep 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub PB Shamarao (JC-376738K), 01 Sep 2012

Nb Sub Haroop Singh Gurjar (JC-376742M), 01 Oct 2012

Nb Sub Sudarsanan Pillai J (JC-376743P), 01 Oct 2012

Nb Sub Bhore Lahu Daulatrao (JC-376745A), 01 Oct 2012

Nb Sub Anil Kumar CK (JC-376971X), 01 Oct 2012

To be Subs Sub (FOS)

Nb Sub Vijay Pal Singh (JC-378417L), 01 Sep 2012

Nb Sub M Rahman (JC-378418N), 01 Sep 2012

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-378431X), 01 Sep 2012

Nb Sub Surender Kumar (JC-378661L), 01 Sep 2012

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-378665F), 01 Oct 2012

Nb Sub Mahipal Singh (JC-378666K), 01 Oct 2012

Nb Sub Vinod Kumar (JC-378667M), 01 Oct 2012

Nb Sub Umesh Chand (JC-378668P), 01 Oct 2012

Nb Sub Mritunjay Sharma (JC-378670M), 01 Oct 2012

To be Subs Sub (Op Cipher)

Nb Sub Suresh Chand Yadav (JC-378747K), 01 Oct 2012

Nb Sub Balbir Singh (JC-378776Y), 01 Oct 2012

Nb Sub Lauhar Singh (JC-378777F), 01 Oct 2012

Nb Sub Gambhir Singh Basera (JC-378778K), 01 Oct 2012

To be Subs Sub (OSS)

Nb Sub Rajvir Singh (JC-378378X), 01 Oct 2012

Nb Sub Devendra Singh (JC-378379A), 01 Oct 2012

To be Subs Sub (Clk SD)

Nb Sub Ghana Kanta Borgohain (JC-377827P), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharmveer (JC-378793Y), 01 Sep 2012

Nb Sub AR Choudhury (JC-378857Y), 01 Oct 2012

Nb Sub Suresh Chandra (JC-378858F), 01 Oct 2012

Nb Sub Satish Chandra (JC-378860Y), 01 Oct 2012

Nb Sub Baldev Singh (JC-378923W), 01 Oct 2012

Nb Sub Chandra Kumar Dutta (JC-378924Y), 01 Oct 2012

Nb Sub Rajbir Singh (JC-378925F), 01 Oct 2012

Nb Sub K Bhaskar Reddy (JC-378943K), 01 Oct 2012

Nb Sub S. Ahmed Barbhuiya (JC-378944M), 01 Oct 2012

Nb Sub Ashok Kumar (JC-378945P), 01 Oct 2012

Nb Sub Unnikrishnan B (JC-378947A), 01 Oct 2012

Nb Sub Neelam Srinivasa Rao (JC-378946X), 01 Oct 2012

Nb Sub Dileep Kumar S (JC-378948H), 01 Oct 2012

Nb Sub N Bojaraj (JC-378970N), 01 Nov 2012

Nb Sub V Rangasiva Arul N (JC-378971W), 01 Oct 2012

## To be Subs Sub (SKT)

Nb Sub Pawan Kumar (JC-378386W), 01 Oct 2012

Nb Sub Ram Krishan (JC-378509X), 01 Oct 2012

Nb Sub Chaman Lal (JC-378511P), 01 Oct 2012

Nb Sub Om Prakash (JC-378568K), 01 Oct 2012

Nb Sub Abdul Kalam (JC-378570F), 01 Oct 2012

Nb Sub Satpal Sharma (JC-378639A), 01 Oct 2012

## To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Mohammad Saddik (JC-378896X), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01st Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub BP Rajamani Naidu (JC-378107A), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sugathan S (JC-378525P), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bubul Gogoi (JC-378586M), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harendra Singh (JC-378589A), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kishan Singh Mahara (JC-378763F), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharmendra Bharadwaj (JC-378803X), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Parmeshwar Singh (JC-378955Y), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pramod Kumar Singh (JC-379066N), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 26th Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dhruba Joyti Saikia (JC-379433P), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suresh Chand (JC-379443Y), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Inderjit Singh (JC-379444F), 01 Jul 2012

Nb Sub Pammi V Ramana Murty (JC-379449A), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shyamal Paul (JC-379454L), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramakanta Singha (JC-379494M), 01 Aug 2012

Nb Sub Sunil Joseph (JC-377966Y), 17 Sep 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Viswanathan K (JC-379505N), 01 Sep 2012

Nb Sub Shiv Kumar Singh (JC-379507Y), 01 Sep 2012

Nb Sub Gawade Mahendra Damodar (JC-379510Y), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shaju Bhan (JC-379512K), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kapoor Singh (JC-379515X), 01 Sep 2012

Nb Sub P Kumar Tripathi (JC-379516A), 01 Sep 2012

Nb Sub Vinod Kumar Sharma (JC-379517H), 01 Sep 2012

Nb Sub B Venkata Ramana (JC-379519N), 01 Sep 2012

Nb Sub Hukam Singh (JC-379520H), 01 Sep 2012

Nb Sub Goutam Goswami (JC-379521L), 01 Sep 2012

Nb Sub Santosh Kumar Pandey (JC-379522N), 01 Sep 2012

Nb Sub Vikram Singh (JC-379569Y), 01 Oct 2012

Nb Sub Mahesh Chand Tiwari (JC-379571W), 01 Oct 2012

Nb Sub S Ranjit Kumar Singha (JC-379572Y), 01 Oct 2012

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-379573F), 01 Oct 2012

Nb Sub Srikanta Mishra (JC-379575M), 01 Oct 2012

Nb Sub Shyamal Karmakar (JC-379576P), 02 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kumbhar Laxman P (JC-379578A), 01 Oct 2012

Nb Sub Ravindra Kumar Singh (JC-379579H), 01 Oct 2012

Nb Sub K Athirooban (JC-379580X), 01 Oct 2012

Nb Sub Manzoor Ahmad Khan (JC-379581A), 01 Oct 2012

|   |   |
|---|---|
| Nb Sub Bhrigunath Singh (JC-379582H), 01 Oct 2012   | Nb Sub Puspendu Nanda (JC-378680W), 01 Dec 2012   |
| Nb Sub Chura Mani (JC-379583L), 01 Oct 2012   | To be Subs Sub (Op Cipher)  |
| Nb Sub Bheru Lal Suman (JC-379584N), 01 Oct 2012  | Nb Sub Harver Singh (JC-378779M), 01 Nov 2012   |
| Nb Sub Madan Kumar (JC-379586Y), 01 Oct 2012  | Nb Sub Rajendran V (JC-378780F), 01 Nov 2012  |
| Nb Sub Dinesh Kumar Sahu (JC-379589M), 01 Oct 2012  | Nb Sub Sahabuddin Ansari (JC-378781K), 01 Nov 2012  |
| Nb Sub M Gunasekaran (JC-379590F), 01 Oct 2012  | Nb Sub PK Samantary (JC-378782M), 01 Nov 2012   |
| Nb Sub Jagdish Kumar (JC-379591K), 01 Oct 2012  | Nb Sub Pradeep S (JC-378783P), 01 Nov 2012  |
| Nb Sub Anil Singh Manhas (JC-379592M), 01 Oct 2012  | Nb Sub Dharamvir Singh (JC-378825W), 02 Dec 2012  |
| Nb Sub K Shanker Yadav (JC-379593P), 01 Oct 2012  | To be Subs Sub (OSS)  |
| Nb Sub Komaranenishesu Babu (JC-379594X), 01 Oct 2012                                       | Nb Sub Satish Kumar (JC-378376M), 01 Oct 2012   |
| Nb Sub Bhushan Datt Kashyap (JC-379595A), 01 Oct 2012                                       | Nb Sub Jadhav Balu Ananda (JC-378380P), 01 Oct 2012   |
| Nb Sub Hazara Singh (JC-379596H), 01 Oct 2012   | Nb Sub Satish Kumar (JC-378381X), 01 Nov 2012   |
| Nb Sub Govind Prasad (JC-379598N), 01 Oct 2012  | Nb Sub Vilochan Prasad Joshi (JC-378382A), 01 Dec 2012                                      |
| Nb Sub Davendra Singh Chunge (JC-379599W), 01 Oct 2012                                      | Nb Sub Jagdish Chandra (JC-378444P), 01 Dec 2012  |
| Nb Sub Amiya Lahan (JC-379600A), 01 Oct 2012  | Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-378447H), 01 Dec 2012  |
| Nb Sub Jatendra Kumar (JC-379601H), 01 Oct 2012   | Nb Sub Bajilla Tellies (JC-378487K), 01 Dec 2012  |
| Nb Sub Sushil Kumar Verma (JC-379602L), 01 Oct 2012   | To be Subs Sub (Clk SD)   |
| Nb Sub Pramod EK (JC-379673M), 01 Nov 2012  | Nb Sub Bhookan Singh (JC-378859K), 01 Oct 2012  |
| To be Subs Sub (YOS)  | Nb Sub Santosh Kumar G (JC-378969Y), 01 Nov 2012  |
| Nb Sub Indrajeet Upadhyay (JC-376744X), 01 Oct 2012   | Nb Sub PS Thangamuthu (JC-378973F), 01 Nov 2012   |
| Nb Sub Prolay Debnath (JC-376973H), 02 Dec 2012   | Nb Sub G Ravi (JC-379059X), 01 Dec 2012   |
| To be Subs Sub (FOS)  | Nb Sub Jeewan Singh (JC-379060M), 01 Dec 2012   |
| Nb Sub Devendra Kumar (JC-378663W), 01 Oct 2012   | Nb Sub Pawan Kumar Sadotra (JC-379061P), 01 Dec 2012  |
| Nb Sub Saroj Kumar Gupta (JC-378664Y), 01 Oct 2012  | Nb Sub Gauri Shankar Sharma (JC-379062X), 01 Dec 2012                                       |
| Nb Sub Bana Bihar Baral (JC-378671P), 01 Nov 2012   | To be Subs Sub (SKT)  |
| Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-378672X), 01 Nov 2012   | Nb Sub Devadas M (JC-378385N), 17 Sep 2012  |
| Nb Sub Anoop Kumar (JC-378673A), 01 Nov 2012  | (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances) |
| Nb Sub Promod Kumar Kaushik (JC-378674H), 01 Nov 2012                                       | Nb Sub Saudan Singh (JC-378794F), 01 Nov 2012   |
| Nb Sub MK Tripathi (JC-378675L), 01 Nov 2012  | Nb Sub Bani Singh (JC-378795K), 01 Nov 2012   |
| Nb Sub Ajaipal Singh (JC-378676N), 05 Dec 2012  | Nb Sub Omvir Singh (JC-378862K), 01 Nov 2012  |
| (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances) | Nb Sub Nawal Kishor (JC-378863M), 01 Dec 2012   |
| Nb Sub Krishna Bahadur Rai (JC-378677W), 01 Dec 2012  | To be Subs Sub (GD)   |
| Nb Sub Rajput Sujana Singh R (JC-378678Y), 01 Dec 2012                                      | Nb Sub Santosh Kumar Swain (JC-379568W), 01 Oct 2012  |
| Nb Sub Sunil Kumar VC (JC-378679F), 01 Dec 2012   | Nb Sub Gobardhan Maharana (JC-379606F), 01 Nov 2012   |
|   | Nb Sub Ajay Kumar Singh (JC-379607K), 01 Nov 2012   |
|   | Nb Sub Om Kanwar (JC-379608M), 01 Nov 2012  |

Nb Sub Jagadish Narayan (JC-379612P), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Khamakar Raju S (JC-379670Y), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Mahendra Prasad Singh (JC-379671F), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Mohan Singh (JC-379672K), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Radhey Shyam Yadav (JC-379674P), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Sushanta Ghosh (JC-379675X), 05 Nov 2012  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2012  
 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Anjan Kumar Bhuyan (JC-379676A), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Sainuddin PP (JC-379694H), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Naresh Kumar (JC-379695L), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Jai Bhagwan (JC-379696N), 01 Nov 2012  
 Nb Sub Vinay Kumar (JC-379697W), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Pitabas Mohanta (JC-379698Y), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Hridaya Narayan Sah (JC-379701N), 01 Dec 2012  
 Nb Sub K Narendra Singh RS (JC-379702W), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Salunkhe Bhousaheb N (JC-379704F), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Kadam Bhart Bajrang (JC-379705K), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Sirsikar Vijay Sewakram (JC-379706M), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Gopa Kumar PS (JC-379707P), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Polishi Ashok B (JC-379713H), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Satnam Das (JC-379714L), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Pramod VK (JC-379717Y), 01 Dec 2012  
 Nb Sub Ramakant Sharma (JC-378256N), 02 Dec 2012  
 Nb Sub Satendra Pal Singh (JC-379718F), 02 Dec 2012  
 Nb Sub Ravan Ravindranath A (JC-379719K), 02 Dec 2012  
 Nb Sub Mahabir (JC-379720Y), 02 Dec 2012

To be Subs Sub (YOS)

Nb Sub Omprakash Malaw (JC-376017A), 01 Nov 2011  
 Nb Sub Mahendra Pratap (JC-376016X), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Dobhada Ravindra Kumar R (JC-376019L),  
 01 Jan 2012

To be Subs Sub (FOS)

Nb Sub Prabhat Guchhait (JC-377483F), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Ranjeet Singh (JC-377484K), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Devendra Singh Bisht (JC-377485M), 01 Dec 2011  
 Nb Sub RS Kumaran (JC-377487X), 01 Dec 2011

Nb Sub R Vijaya Baskara (JC-377489H), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Baiju P (JC-377491A), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Sattaru Lakshman Rao (JC-377492H), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Mukesh Kumar Ojha (JC-377493L), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Murugan R (JC-377494N), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Ashutosh Jha (JC-377773Y), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Seejo S (JC-377774F), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Joga Ram Patel (JC-377775K), 01 Jan 2012

To be Subs Sub (OP Cipher)

Nb Sub Gunanidhi Nayak (JC-378439K), 01 Dec 2011  
 Nb Sub K Venkata Reddy (JC-377704H), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Chandi Das (JC-378151K), 04 Jan 2012  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2012 without  
 effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Lakhpat Singh (JC-378206H), 01 Jan 2012

To be Subs Sub (OSS)

Nb Sub Bipin Kumar Singh (JC-377985K), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Gurtej Singh (JC-377986M), 01 Dec 2011  
 Nb Sub A Rama Mohan (JC-377987P), 01 Dec 2011  
 Nb Sub PK Singh (JC-377988X), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Hardayal Singh (JC-377989A), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Hari Kumar Singha (JC-377991X), 01 Jan 2012  
 Nb Sub L K Mohan Singha (JC-377992A), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Shyamal Datta (JC-378056X), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Sanjay Kumar Das (JC-378057A), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Sunil Dutt (JC-378060A), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Shiodhari Yadava (JC-378061H), 01 Jan 2012

To be Subs Sub Clk (SD)

Nb Sub Ram Sevak (JC-377381L), 01 Dec 2011  
 Nb Sub G Elangovan (JC-377383W), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Sarish Paul (JC-378030H), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Mobarok Saikh (JC-377441P), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Bijender Singh (JC-377554X), 01 Dec 2011  
 Nb Sub Rajbir Singh (JC-377557L), 01 Jan 2012  
 Nb Sub A Madhumangal Singha (JC-377577Y), 01 Jan 2012  
 Nb Sub Barister Singh Yadav (JC-377580Y), 01 Jan 2012

Nb Sub Kashi Nath Pandey (JC-377582K), 01 Jan 2012

Nb Sub Sumer Singh (JC-377638L), 01 Jan 2012

Nb Sub Girish Chandra Joshi (JC-377642N), 01 Jan 2012

Nb Sub Surendra Prasad (JC-377644Y), 01 Jan 2012

To be Subs Sub (SKT)

Nb Sub Subhash Chandra (JC-379425W), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub DB Ambadas (JC-377427H), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub AK Pandey (JC-378167P), 01 Oct 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub SK Mohan Singha (JC-378276F), 01 Oct 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chandu Kuttan KG (JC-378514H), 01 Nov 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hemendra Singh (JC-378602Y), 01 Nov 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sarat Singh (JC-378614N), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Joginder Singh (JC-378617F), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vijay Kumar (JC-378618K), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub SN Choudhary (JC-378622M), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajendra Prasad Singh (JC-378623P), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rakesh Kumar Gupta (JC-378630L), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Madan Kumar Sharma (JC-378631N), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 21 Jun 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rattan Lal (JC-378736X), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiv Kumar Singh (JC-378770X), 01 Dec 2011

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub M Lourduraj (JC-378772H), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub K Rajesh Kumar SRS (JC-378797P), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Joy John (JC-378802P), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bal Ram (JC-378805H), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiv Prasanna Rai (JC-378868L), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mukesh Kumar Singh (JC-378869N), 01 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-378883A), 01 Jan 2012

Nb Sub Chandra Bhushan (JC-378884H), 01 Jan 2012

Nb Sub Sumer Singh (JC-378885L), 01 Jan 2012

Nb Sub Bhupesh Chand (JC-378886N), 01 Jan 2012

Nb Sub Jai Nath Pandey (JC-378887W), 01 Jan 2012

Nb Sub U K Kundu (JC-378888Y), 01 Jan 2012

To be Subs Nb Sub (JE System)

Hav Suja Ram Jakhar (No. 15392787H now JC-381523P), 01 Jul 2012

Hav Santosh Kumar Mishra (No. 15665945F now JC-381543H), 01 Jul 2012

Hav Khim Singh (No. 15667887F now JC-381639L), 01 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No.15394781A now JC-381704A), 01 Oct 2012

Hav KK Biswal (No.15387073L now JC-381801L), 01 Nov 2012

Hav Sriman Perkati (No.15667605X now JC-381802A), 01 Nov 2012

Hav Shiv Shran Mishra (No.15669261H now JC-381803H), 01 Nov 2012

To be Subs Nb Sub (JE NE)

Hav Bhupender Singh (No.15389442W now JC-381574H), 19 Aug 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

To be Subs Nb Sub (OP Cipher)

Hav Rajesh Kumar M V (No.15375625F now JC-381804L), 01 Nov 2012

Hav A K Awasthi (No.15375453X now JC-381805N), 01 Nov 2012

Hav Sankara Parida (No.15372572H now JC-381806W), 01 Nov 2012

Hav Titus Soza (No.15371949P now JC-381807Y), 01 Nov 2012

Hav Raut Sunil Changdeo (No.15374437N now JC-381808F), 01 Nov 2012

Hav Arun Kumar (No.15372616P now JC-381809K), 01 Nov 2012

Hav Ajay (No.15374833K now JC-381853N), 01 Dec 2012

Hav Rajesh Kumar (No.15375452P now JC-381855Y), 01 Dec 2012

To be Subs Nb Sub (OSS)

Hav M Pratap Singh (No.15365529Y now JC-381810Y), 01 Nov 2012

Hav Nand Lal (No.15367937H now JC-381811F), 01 Nov 2012

Hav Hargovind Ballabh (No.15367858N now JC-381812K), 01 Nov 2012

Hav Ashok Kumar Semwal (No.15367272X now JC-381813M), 01 Nov 2012

Hav Ram Sewak Pandey (No.15368129X now JC-381856F), 01 Dec 2012

Hav Satendra Kumar Pandey (No.15368623N now JC-381857K), 01 Dec 2012

Hav Mukesh Chand (No.15368262A now JC-381858M), 01 Dec 2012

To be Subs Nb Sub Clk(SD)

Hav LMS Shahi (No.15370445P now JC-381814P), 01 Nov 2012

Hav D Ashok Kumar R (No.15378307H now JC-381815X), 09 Nov 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Raju L (No.15374136K now JC-381816A), 01 Nov 2012

Hav TS Moti Ram (No.15371205K now JC-381817H), 01 Nov 2012

Hav Atul Chandra Barman (No.15372955P now JC-381818L), 01 Nov 2012

Hav Permanand (No.15375295N now JC-381819N), 01 Nov 2012

Hav Padmasekharan K (No.15359130L now JC-381859P), 01 Dec 2012

Hav Sanjoy Kumar Halder (No.15370530X now JC-381860K), 01 Dec 2012

Hav Bhuwan Gurung (No.15373214K now JC-381861M), 01 Dec 2012

Hav Meer Sajul Ali (No.15373539X now JC-381862P), 01 Dec 2012

To be Subs Nb Sub (SKT)

Hav Kaushal Kishore T (No.15362075L now JC-381820H), 01 Nov 2012

Hav Sugathan PK (No.15371414F now JC-381821L), 03 Nov 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

Hav KP Pratap Singh (No.15373026H now JC-381822N), 01 Nov 2012

To be Subs Nb Sub (Technical)

Hav Anup Kumar Haldar (No.15369212F now JC-381863X), 01 Dec 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Krishan Kumar (No.15358720X now JC-381867L), 01 Sep 2012

Hav K Ravasaheb Sadashiv (No.15358332A now JC-381868N), 01 Sep 2012

Hav Prahlad Singh (No.15359207H now JC-381869W), 01 Sep 2012

Hav Santosh Kumar Patra (No.15368323M now JC-381754L), 01 Oct 2012

Hav Nandlal Singh Yadav (No.15364161P now JC-381761F),  
01 Oct 2012

Hav Bahubara Naik (No.15369223N now JC-381769N),  
01 Oct 2012

Hav Sanap Tejrao Namdeo (No.15357580K now JC-381770H), 18 Oct 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Ram Pramod Singh (No.15359874W now JC-381823W),  
01 Nov 2012

Hav Mukesh Kumar Rawat (No.15359920A now JC-381824Y), 01 Nov 2012

Hav D Ashok Ramchandra (No.15360103N now JC-381825F), 01 Nov 2012

Hav Kamlesh Kumar (No.15360034H now JC-381826K),  
01 Nov 2012

Hav Rajive Kumar (No.15368103H now JC-381828P), 01 Nov  
2012

Hav Jaydeep Kumar (No.15368564M now JC-381829X),  
01 Nov 2012

Hav Vikram Singh (No.15363809N now JC-381830M),  
01 Nov 2012

Hav Samsher Singh (No.15367450P now JC-381831P),  
01 Nov 2012

Hav Virendra Tiwari (No.15367361W now JC-381832X),  
01 Nov 2012

Hav Amar Singh (No.15362984W now JC-381833A),  
01 Nov 2012

Hav Mehmood Difoosa (No.15368057Y now JC-381834H),  
01 Nov 2012

Hav Ranveer Singh (No.15368293A now JC-381835L),  
01 Nov 2012

Hav Sompal Singh (No.15364057F now JC-381836N),  
01 Nov 2012

Hav Ashok Kumar (No.15369025X now JC-381837W),  
01 Nov 2012

Hav Kurale Shivaji Babu (No.15360238P now JC-381838Y),  
01 Nov 2012

Hav Ajay Kumar (No.15365859X now JC-381839F), 01 Nov  
2012

Hav Nizarudeen TT (No.15369104X now JC-381840W),  
01 Nov 2012

Hav Sanjay (No.15368158M now JC-381841Y), 01 Nov 2012

Hav Anil Kumar KS (No.15362906Y now JC-381842F),  
01 Nov 2012

Hav SS Bhadoria (No.15368625Y now JC-381866L), 01 Dec  
2012

#### To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Prem Kumar M (No.15687370X now JC-381590A),  
17 Jul 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Harendra Kumar Singh (No.15359673X now JC-381697P), 01 Sep 2012

Hav Ram Chandra Rai (No.15359360Y now JC-381782X),  
01 Oct 2012

Hav K Narsimulu (No.15362975P now JC-381843K),  
01 Nov 2012

Hav Mukesh Kumar (No.15360576M now JC-381844M),  
01 Nov 2012

Hav Prakash Mirmalkar (No.15362461X now JC-381845P),  
01 Nov 2012

Hav RP Singh (No.15362525X now JC-381846X), 01 Nov  
2012

Hav Parmar Soma Bhai KB (No.15359722P now JC-381847A), 01 Nov 2012

Hav Raj Kumar Sharma (No.15363407W now JC-381848H),  
01 Nov 2012

Hav Ved Prakash (No.15364314N now JC-381849L),  
01 Nov 2012

Hav Mohammad Mobeen (No.15364427W now JC-381850A), 01 Nov 2012

Hav Anokhey Lal (No.15364668W now JC-381851H),  
01 Nov 2012

#### SPECIAL LIST

##### CORPS OF SIGNALS

To be Subs Nb Sub (Religious Teacher) (Granthi)

Nb Sub Sarvjeet Singh (No.1494580A now JC-379966X),  
30 Jan 2010

Nb Sub Maninder Singh (No.15667221N now JC-380857X), 19 Feb 2011

To be Subs Nb Sub (Religious Teacher) (Pandit)

Nb Sub Rajesh Painuly (No.4087792X now JC-380038N),  
30 Jan 2010

Nb Sub Dinesh Chandra Thuwal (No.4190564P now JC-380039W), 15 May 2010

Nb Sub Shivendra Kant (JC-380944L), 04 Feb 2012

Nb Sub Balendra Ram Pandey (JC-380943H), 04 Feb 2012



**ARMY SERVICE CORPS  
(MECHANICAL TRANSPORT/SUPPLY)**

The President is pleased to make the following promotions:—

To be Sub Maj Clk (PA)

Sub Unni Krishnan Arennil (JC-642820L), 01 Dec 2011

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub Sridharan S (JC-642218L), 01 Dec 2011

Sub Sanal G Nair (JC-640846F), 02 Jan 2012\*

Sub Suresh Kumar KG (JC-642264A), 01 Jan 2012

Sub Rajender Singh (JC-641795L), 16 Jan 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2012 without effect on pay & allowances)

To be Sub Maj (SKT)

Sub Doodh Nath Singh (JC-641691K), 01 Dec 2011

Sub Shamsher Singh (JC-641878W), 03 Dec 2011\*

Sub Anand Singh (JC-641546M), 01 Jan 2012

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2011 without effect on pay & allowances)

To be Sub Maj (MT)

Sub Summer Singh (JC-663872P), 01 Dec 2011

Sub Narendra Singh Dhami (JC-663853K), 03 Dec 2011\*

Sub Shish Ram (JC-663151L), 16 Dec 2011\*

Sub Ram Vakil (JC-663713X), 30 Dec 2011\*\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2011 without effect on pay & allowances)

\*\* (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances)

DEEPAK NARANG  
Under Secy

**ARMY BRANCH**

No. 145, dated 19th March 2013—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

**INFANTRY**

**THE DOGRA REGIMENT**

To be Nb Sub

Hav Raju Ram (No. 3991353K now JC-521573A), 20 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Paul (No. 3990958Y now JC-521574H), 24 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdatter Singh (No. 3991009Y now JC-521575L), 18 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bhupinder Singh (No. 3989559H now JC-521576N), 01 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vineet Kumar (No. 3989575A now JC-521577W), 01 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mukesh Kumar (No. 3991393L now JC-521578Y), 20 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Manohar Lal Dogra (No. 3990214N now JC-521579F), 06 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 3990088M now JC-521580W), 26 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balwant Singh (No. 3989773L now JC-521581Y), 25 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 3989298A now JC-521587A), 02 Oct 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdev Singh (No. 3988938M now JC-521588H), 05 Oct 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sudershan Singh (No. 3988950N now JC-521589L), 25 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagdev Singh (No. 3990487W now JC-521590A), 08 Oct 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sunil Kumar (No. 3988984F now JC-521591H), 28 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Chain Singh (No. 3989013H now JC-521592L), 27 Sep 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Pardeep Singh (No. 3990874L now JC-521593N), 03 Oct 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Manohar Lal (No. 3992393X now JC-521594W), 29 Oct 2012+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clerk (SD)

Hav/Clk Battula Karunakaram (No. 3992327P now JC-521582F), 01 Aug 2012

Hav/Clk Moreboina Yanadi (No. 3992328X now JC-521583K), 01 Sep 2012

Hav/Clk Nirmal Kumar Biswal (No. 3992330P now JC-521584M), 01 Sep 2012

Hav/Clk Sanjeev Kumar (No. 3992339K now JC-521585P), 01 Oct 2012

Hav/Clk Ajay Krishna Kushwaha (No. 3992410M now JC-521586X), 01 Oct 2012

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Nar Bahadur Pun (No. 5452276N now JC-618093A), 01 Jul 2012

Hav Him Lal Thapa (No. 5451355W now JC-618094H), 01 Aug 2012

Hav Dhan Bahadur Gurung (No. 5450955M now JC-618095L), 01 Aug 2012

Hav Durga Bahadur Thapa (No. 5450861P now JC-618096N), 01 Sep 2012

Hav Rajendra Bhandari (No. 5451476X now JC-618097W), 01 Sep 2012

Hav Dor Bahadur Thapa (No. 5452299P now JC-618083W), 01 May 2012

Hav Khum Bahadur Thapa (No. 5450838F now JC-618084Y), 01 May 2012

Hav Kamal Bahadur Gurung (No. 5451043A now JC-618085F), 01 May 2012

Hav Bam Bahadur Gurung (No. 5451298A now JC-618086K), 01 May 2012

Hav Harka Bahadur Rai (No. 5451090X now JC-618087M), 01 May 2012

Hav Som Bahadur Gurung (No. 5452127A now JC-618088P), 01 May 2012

Hav Mitra Bahadur Bhujel (No. 5452911N now JC-618089X), 01 Jun 2012

Hav Bal Bahadur Pun (No. 5451064W now JC-618090M), 01 Jun 2012

Hav Prem Bahadur Ghale (No. 5452190P now JC-618091P), 01 Jun 2012

Hav Mohan Gurung (No. 5451149M now JC-618092X), 24 Jul 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Bahadur Gurung (No. 5451492P now JC-618098Y), 01 Sep 2012

Hav Ludra Singh Thapa (No. 5451113N now JC-618099F), 03 Sep 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Yam Bahadur Thapa (No. 5451128W now JC-618100L), 12 Sep 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dhruva Thapa Magar (No. 5451269L now JC-618101N), 03 Sep 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kul Bahadur Gurung (No. 5452115L now JC-618102W), 01 Sep 2012

To be Nb Sub (GD)/Clk (SD)

Hav Bel Bahadur Ale (No. 5450975A now JC-618073M), 01 Jan 2012

Hav Gyandra Bahadur Singjali (No. 5452061P now JC-618079N), 01 Mar 2012

Hav Padam Bahadur (No. 5452185K now JC-618080H), 30 Mar 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk K Seenivasagan (No. 13754644A now JC-618081L), 17 May 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dil Bahadur Gurung (No. 5450826M now JC-618082N), 13 Apr 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Narayan Singh (No. 4183569L now JC-541133N), 01 Oct 2012

Hav Rajendra Prasad Joshi (No. 4182916M now JC-541134W), 01 Oct 2012

Hav Indra Singh Bisht (No. 4182920P now JC-541135Y), 01 Oct 2012

Hav Ravinder Singh (No. 4182974W now JC-541136F), 01 Oct 2012

Hav Prem Singh (No. 4182975Y now JC-541137K), 01 Oct 2012

Hav Sunder Singh (No. 4183525N now JC-541138M), 01 Oct 2012

Hav Diman Singh (No. 4181992M now JC-541139P), 01 Oct 2012

Hav Devendra Singh (No. 4184511A now JC-541140K), 01 Oct 2012

Hav Gopal Datt (No. 4184440K now JC-541141M), 01 Oct 2012

Hav Govind Singh (No. 4184276M now JC-541142P), 01 Oct 2012

Hav Chandan Singh (No. 4184289K now JC-541143X), 04 Oct 2012/01 Oct 2012\*

\*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Harish Singh Salal (No. 4182534H now JC-541144A), 01 Oct 2012

#### THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Raj Bahadur Shukla (No. 2993934W now JC-480887K), 01 Mar 2012

Hav/Clk Rajesh Bahadur Singh (No. 2593966Y now JC-480888M), 01 Mar 2012

To be Nb Sub

Hav Sri Ram Raj Singh Chauhan (No. 2988407Y now JC-480853W), 01 Mar 2012/05 May 2011\*

Hav Virendra Singh Rathore (No. 2988795F now JC-480854Y), 15 Feb 2012/01 Sep 2011\*

Hav Bahadur Singh (No. 2989460W now JC-480855F), 15 Feb 2012/01 Oct 2011\*

Hav Om Prakash Singh (No. 3003007X now JC-480856K), 16 Feb 2012/01 Oct 2011\*

Hav Hira Singh Tanwar (No. 2989551A now JC-480857M), 27 Feb 2012/01 Oct 2011\*

Hav Banwari Singh Parmar (No. 2990157F now JC-480858P), 29 Feb 2012/09 Nov 2011\*

Hav Tanwar Singh Shekhawat (No. 2990226M now JC-480859X), 09 Mar 2012/01 Dec 2011\*

Hav Bhagwat Prasad Singh (No. 2990366Y now JC-480863A), 18 Feb 2012/01 Jan 2012\*

Hav Khuman Singh Rawat (No. 2990403F now JC-480864H), 04 Apr 2012/01 Jan 2012\*

Hav Prem Raj Singh (No. 2990396W now JC-480860M), 18 Feb 2012/01 Jan 2012\*

Hav Ram Kishan (No. 2990411A now JC-480861P), 18 Feb 2012/01 Jan 2012\*

Hav Dheer Singh (No. 2990306K now JC-480883N), 20 Mar 2012/01 Jan 2012\*

Hav Ummed Singh (No. 2990248L now JC-480862X), 07 Mar 2012/01 Jan 2012\*

Hav Rakesh Kumar Sharma (No. 2990698H now JC-480882L), 24 Mar 2012/01 Jan 2012\*

Hav Prakash Chandra (No. 2990420F now JC-480865L), 18 Feb 2012/17 Jan 2012\*

Hav Bahadur Singh (No. 2987428H now JC-480866N), 27 Feb 2012/31 Jan 2012\*

Hav Ram Bahadur Singh (No. 2990164X now JC-480876X), 01 Mar 2012/01 Feb 2012\*

Hav Balbir Singh (No. 2988154P now JC-480868Y), 16 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Deshraj Singh (No. 2990564K now JC-480870W), 17 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Anand Singh Rathore (No. 2992773A now JC-480874M), 18 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Mani Ram (No. 2990319F now JC-480871Y), 07 Mar 2012/01 Feb 2012\*

Hav Ranjeet Singh (No. 2988539M now JC-480877A), 27 Feb 2012/03 Feb 2012\*

Hav Mahesh Chandra Gurjar (No. 2989219K now JC-480869F), 18 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Anuj Pratap Singh Parihar (No. 2990202H now JC-480875P), 28 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Ravendra Singh (No. 2990205H now JC-480879L), 18 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Surendra Singh (No. 2992425Y now JC-480881H), 27 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Fateh Singh (No. 2991587X now JC-480872F), 27 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Bhoor Singh (No. 2992368X now JC-480880A), 22 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Ramdev Gurjar (No. 2987893P now JC-480867W), 09 Feb 2012/01 Feb 2012\*

Hav Narvir Singh (No. 2987118X now JC-480873K), 13 Mar 2012/01 Feb 2012\*

Hav Sahab Singh (No. 2988010M now JC-480878H), 25 Feb 2012/02 Feb 2012\*

Hav Ram Hari Singh (No. 2990465F now JC-480884W), 25 Mar 2012/09 Feb 2012\*

Hav Dharam Pal Singh (No. 2988209N now JC-480855Y), 30 Mar 2012/12 Feb 2012\*

Hav Dhoop Singh Gurjar (No. 2990648X now JC-480886F), 10 Mar 2012/20 Feb 2012\*

Hav Girdhari Singh (No. 2987173N now JC-480893K), 07 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Shaukin Singh (No. 2988626A now JC-480894A), 07 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Banwari Lal Gurjar (No. 2992005Y now JC-480889P), 07 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Birendra Kumar (No. 2992137M now JC-480890K), 07 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Kousik Kanti Das (No. 13619197N now JC-480898W), 03 May 2012/01 Mar 2012\*

Hav Mohd Azeem Khan (No. 2991134M now JC-480897N), 13 Apr 2012/01 Mar 2012\*

Hav Mukh Raj Gurjar (No. 2989379K now JC-480895H), 14 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Ravindra Kumar (No. 2992436L now JC-480901L), 24 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Hans Raj Gurjar (No. 2989403P now JC-480896L), 20 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Krishan Chander (No. 2989353P now JC-480891M), 01 Apr 2012/01 Mar 2012\*

Hav Chaman Singh (No. 2993415F now JC-480900H), 21 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Sube Singh (No. 2989362W now JC-480892P), 29 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Biman Chandra Parmanik (No. 2990208K now JC-480899Y), 02 Mar 2012/01 Mar 2012\*

Hav Hakam Singh (No. 2992175H now JC-480902N), 06 Jun 2012/13 Mar 2012\*

#### To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Bhuwan Chandra (No. 2987856F now JC-480813P), 01 Dec 2011

Hav/Clk Babu Lal (No. 2987954F now JC-480814X), 01 Dec 2011

#### To be Nb Sub

Hav Dheeraj Singh (No. 2988262Y now JC-480804N), 14 Dec 2011/02 Oct 2011\*

\*(Seniority wef 02 Oct 2011)

Hav Rambir Singh Bhadoria (No. 2989722F now JC-480824F), 14 Feb 2012/05 Oct 2011\*

\*(Seniority wef 05 Oct 2011)

Hav Nand Singh (No. 2989762H now JC-480825K), 13 Oct 2011

Hav Vinod Kumar (No. 2990343X now JC-480826M), 01 Nov 2011

Hav Indra Singh (No. 2988314K now JC-480805W), 28 Dec 2011/01 Nov 2011\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2011)

Hav Indra Jeet Singh (No. 2989880W now JC-480806Y), 28 Dec 2011/01 Nov 2011\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2011)

Hav Shivendra Singh Parihar (No. 29890764N now JC-480827P), 19 Feb 2012/01 Nov 2011\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2011)

Hav Pushpendra Singh (No. 2989901F now JC-480828X), 07 Mar 2012/01 Nov 2011\*

\*(Seniority wef 01 Nov 2011)

Hav Rajvir Singh (No. 2988474K now JC-480807F), 07 Dec 2011/13 Nov 2011\*

\*(Seniority wef 13 Nov 2011)

Hav Adya Prasad (No. 2987308K now JC-480808K), 21 Dec 2011/17 Nov 2011\*

Hav Ram Vilash Singh Kushwah (No. 2989713A now JC-480809M), 16 Dec 2011/20 Nov 2011\*

Hav Prabhu Singh Shekhawat (No. 2990406P now JC-480810F), 24 Dec 2011/27 Nov 2011\*

Hav Vijay Singh (No. 2989801W now JC-480811K), 24 Dec 2011/27 Nov 2011\*

Hav Sunil Singh Chauhan (No. 2988405N now JC-480812M), 27 Dec 2011/28 Nov 2011\*

Hav Sube Singh (No. 2990895L now JC-480815A), 01 Dec 2011

Hav Dharam Bir (No. 2989651L now JC-480818N), 03 Dec 2011/01 Dec 2011\*

Hav Bhanu Pratap Singh (No. 2988881M now JC-480822W), 05 Dec 2011/01 Dec 2011\*

Hav Brahmjit Singh (No. 2989094K now JC-480823Y), 05 Dec 2011/01 Dec 2011\*

Hav Devi Singh Rathore (No. 2990198L now JC-480819W), 16 Dec 2011/01 Dec 2011\*

Hav Satvir Singh (No. 2885259Y now JC-480817L), 23 Dec 2011/01 Dec 2011\*

Hav Beetu Singh Tomar (No. 2993830H now JC-480846A),  
27 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Amalendu Mondal (No. 2992278F now JC-480816H),  
21 Feb 2012/01 Dec 2011\*

Hav Pathan Firoj Khan (No. 2991081Y now JC-480829A),  
04 Jan 2012/01 Dec 2011\*

Hav Ismail Khan (No. 2991102K now JC-480837Y), 04 Jan  
2012/01 Jan 2012\*

Hav Susanta Mandal (No. 2990721L now JC-480830P),  
11 Jan 2012/01 Dec 2011\*

Hav Ashim Kumar Basu (No. 2991013L now JC-480831X),  
11 Feb 2012/01 Dec 2011\*

Hav Raj Kumar Mandal (No. 13619171Y now JC-480833H),  
11 Jan 2012/01 Dec 2011\*

Hav Sunil Kumar Singh (No. 2990196A now JC-480820L),  
24 Dec 2011/04 Dec 2011\*

Hav Beerendra Singh (No. 2988300K now JC-480821N),  
24 Dec 2011/04 Dec 2011\*

Hav Ravinder Kumar (No. 2989805M now JC-480832A),  
18 Jan 2012/20 Dec 2011\*

Hav Vijay Singh (No. 2990625W now JC-480841F), 01 Jan  
2012

Hav Ranveer Singh (No. 2993354P now JC-480847H),  
01 Jan 2012

Hav Bhanwar Singh Rathore (No. 2990201A now JC-  
480844P), 01 Jan 2012

Hav Sri Chob Singh Tomar (No. 2988143H now JC-  
480839K), 01 Jan 2012

Hav Om Prakash (No. 2989909N now JC-480836W),  
01 Jan 2012

Hav Prem Singh Badhouria (No. 13618655M now JC-  
480845X), 01 Jan 2012

Hav Ram Naresh Gurjar (No. 2989317K now JC-480838F),  
03 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Samay Singh Gurjar (No. 2989324A now JC-480835N),  
06 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Vinod Kumar (No. 2992683Y now JC-480850N),  
07 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Kanwar Singh (No. 2992907N now JC-480851L),  
07 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Jaswant Singh (No. 2988905L now JC-480848L),  
18 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Chaman Singh (No. 2990200X now JC-480840Y),  
11 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Kripa Shankar Pandey (No. 2992204M now JC-  
480834L), 11 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Dileep Kumar Singh (No. 2988422N now JC-480842K),  
17 Jan 2012/01 Jan 2012\*

Hav Mahesh (No. 2992813W now JC-480849N), 18 Jan  
2012/01 Jan 2012\*

Hav Adaitya Kumar Ghosh (No. 13619009F now JC-  
480843M), 03 Feb 2012/01 Jan 2012\*

Hav Anil Kumar (No. 2991875K now JC-480852N),  
17 Mar 2012/01 Jan 2012\*

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Sub

CHM Dhainje Ashok Shrirang (No. 4562143K now JC-  
570838H), 28 Feb 2012@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 20 Jun 2011)

Hav Hajare Sanjay Krishnt (No. 4562266W now JC-  
570839L), 13 Mar 2012#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 14 Jul 2011)

CHM Ajay Prahlad Jadhav (No. 4562272K now JC-  
570840A), 04 Mar 2012\$

CHM Kamble Tukaram Yallapa (No. 4562317Y now JC-  
570841H), 27 Feb 2012\$

Hav Deneshwar Prasad (No. 4562829L now JC-570842L),  
04 Mar 2012\$

Hav Kamble Subhas Krishna (No. 4562943H now JC-  
570843N), 27 Feb 2012\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 06 Oct 2011)

Hav Kundan Singh (No. 4562053H now JC-570844W),  
08 Apr 2012%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 24 Oct 2011)

Hav Naresh Kumar (No. 4562433F now JC-570845Y),  
01 Dec 2011

Hav/Clk (SD) Mrinal Kanti Kundu (No. 4561683W now  
JC-570846F), 30 May 2012^

Hav Jitender Kumar (No. 4560922N now JC-570847K),  
01 May 2012^

^(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jan 2012)

Hav Ogale Tukaram Sudam (No. 4566164X now JC-  
570848M), 01 May 2012&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 02 Jan 2012)

Hav Suryawanshi Laxman Govind (No. 4562524L now JC-570849P), 22 Feb 2012\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 04 Jan 2012)

CHM Anand Singh Bora (No. 4562754Y now JC-570850K), 14 Apr 2012@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2012)

Hav Sarode Kedar Rama (No. 4562176P now JC-570851M), 29 May 2012##

Hav Atul Kumar Ghosh (No. 4562779L now JC-570852P), 04 Jun 2012##

Hav Subhash Chand (No. 4562780A now JC-570853X), 12 Mar 2012##

Hav Jaswant Singh (No. 4561750W now JC-570854A), 13 Apr 2012##

Hav Nitya Nand Singh (No. 4562751L now JC-570855H), 01 Mar 2012##

Hav Babulal Kushwaha (No. 13618451A now JC-570856L), 22 Mar 2012##

CHM Burute Shivdas Namdeo (No. 4561898P now JC-570857N), 22 Mar 2012##

Hav Dan Singh (No. 4563746M now JC-570858W), 02 Apr 2012##

Hav Rajendra Kumar (No. 4563151P now JC-570859Y), 01 May 2012##

CQMH Gawali Bhimrao Rama (No. 4563680F now JC-570860N), 02 Apr 2012##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2012)

Hav Shailendra Kumar (No. 4560690A now JC-570861W), 08 Apr 2012\$\$

CQMH Mange Lal (No. 4561017L now JC-570862Y), 08 Apr 2012\$\$

Hav Satyendra Singh (No. 4561663H now JC-570863F), 08 Apr 2012\$\$

Hav Sher Singh Mahar (No. 4561762L now JC-570864K), 08 Apr 2012\$\$

Hav Mukesh Kumar (No. 4561784K now JC-570865M), 30 Apr 2012\$\$

Hav Gopal Singh (No. 4561976F now JC-570866P), 30 Apr 2012\$\$

Hav Jagpal Singh (No. 4562638W now JC-570867X), 01 May 2012\$\$

Hav Vinod Singh (No. 4562758P now JC-570868A), 30 Apr 2012\$\$

Hav Asit Baran Das (No. 4562794A now JC-570869H), 01 Apr 2012

Hav Gurmel Singh (No. 4562826X now JC-570870X), 01 Apr 2012

Hav Raghuvir Singh (No. 4562281L now JC-570871A), 13 May 2012\$\$

CHM Kharate Krishna Sukhdeo (No. 4562486A now JC-570872H), 02 May 2012\$\$

Hav Asha Ram (No. 4563840W now JC-570873L), 02 Apr 2012\$\$

CHM Shambhu Singh (No. 4563711W now JC-570874N), 01 Apr 2012

Hav Rama Kant (No. 4564399L now JC-570875W), 03 May 2012\$\$

Hav Sumer Singh Bhati (No. 4564415X now JC-570876Y), 20 Apr 2012\$\$

Hav Surendra Singh (No. 4564438Y now JC-570877F), 19 Apr 2012\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2012)

Hav Arvind Singh Yadav (No. 4563598M now JC-570878K), 17 Apr 2012

Hav Ranjit Singh (No. 4562847N now JC-570879M), 02 May 2012%%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 18 Apr 2012)

Hav Sanjeev Kumar (No. 4562890P now JC-570880F), 02 May 2012^^

Hav Gaikwad Dattatraya Sambhaji (No. 4562858A now JC-570881K), 02 Jun 2012^^

Hav Sumit Kumar Mahata (No. 4564521W now JC-570882M), 01 May 2012

Hav Basant Kumar (No. 4564621F now JC-570883P), 01 May 2012

^(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2012)

Hav Chandra Pal Singh (No. 4562906P now JC-570884X), 24 May 2012&&

&&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 13 May 2012)

Hav/Clk (SD) Awale Vishwas Keraba (No. 4562450F now JC-570855A), 02 Jun 2012\*\*

Hav Kanwar Ravinder (No. 4562256M now JC-570886H),  
01 Jun 2012

Hav Dharmender Singh (No. 4562568H now JC-570887L),  
01 Jun 2012

Hav Jatinder Singh (No. 4563028W now JC-570888N),  
01 Jun 2012

\*\*(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jun 2012)

Hav Puran Singh (No. 4562951F now JC-570889W),  
11 Jun 2012@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and  
allowances wef 10 Jun 2012)

Hav/Clk (SD) Shaoud Khan (No. 2685109Y now JC-  
570890L), 01 Jul 2012

Hav/Clk (SD) Khatal Ankush Anad Rao (No. 4562453P  
now JC-570891N), 01 Jul 2012

Hav/Clk (SD) Manoj Kumar Pandey (No. 2685019X now  
JC-570892W), 02 Jul 2012###

### (Granted seniority without effect on pay and  
allowances wef 01 Jul 2012)

Hav Sarwade Balasaheb Sopan Rao (No. 4562391A now  
JC-570894F), 22 Jun 2012@

@ (Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 27 Nov 2011)

Hav Tundare Narshing Baburao (No. 4562859H now JC-  
570895K), 22 Jun 2012#

# (Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Dec 2011)

Hav Barandwal Kishor Dev Singh (No. 4562872M now  
JC-570896M), 05 Jul 2012\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jan 2012)

Hav Sushanta Pattanaik (No. 4563993A now JC-570897P),  
10 Feb 2012%

% (Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Feb 2012)

CQMH Boyiri Nageswara Rao (No. 4562359L now JC-  
570898X), 23 Mar 2012^

^ (Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 27 Feb 2012)

CHM Ram Kishan (No. 4562917F now JC-570899A),  
23 Mar 2012&

Hav Lalit Mohan Singh Sethi (No. 4562703L now JC-  
570900K), 31 May 2012&

Hav Laxman Singh Digari (No. 4563633K now JC-  
570901M), 24 Mar 2012&

& (Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Mar 2012)

Hav Pagare Sunil Karbhari (No. 4562870F now JC-  
570902P), 27 Jun 2012\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 25 May 2012)

Hav Vijendra Singh (No. 4560748M now JC-570903X),  
03 Jul 2012@@

Hav Dinesh Kumar (No. 4561982P now JC-570904A),  
03 Jul 2012@@

Hav Joginder Singh (No. 4562112K now JC-570905H),  
03 Jul 2012@@

Hav Gajendra Singh Tomar (No. 4562404M now JC-  
570906L), 03 Jul 2012@@

@@ (Granted seniority without effect on pay and  
allowances wef 09 Jun 2012)

Hav Narendra Pal Singh Bisht (No. 4562757M now JC-  
570907N), 10 Jul 2012##

## (Granted seniority without effect on pay and allowances  
wef 01 Jul 2012)

#### THE GRENADIERS

##### To be Nb Sub

Hav Avtar Singh (No. 2683604Y now JC-451428H), 01 Jun  
2012

Hav Amar Singh (No. 2685219N now JC-451429L), 01 Jul  
2012

Hav Imam Ali Khan (No. 2683314F now JC-451430A),  
07 Jul 2012

Hav Hari Singh Rajput (No. 2685221L now JC-451431H),  
01 Aug 2012

Hav Bhupinder Singh (No. 2682200K now JC-451432L),  
21 Aug 2012

Hav Natthu Singh (No. 2683059A now JC-451433N),  
22 Aug 2012

Hav Shimbhu Dayal Jat (No. 2683265K now JC-451434W),  
01 Sep 2012

Hav Prem Singh (No. 2683267P now JC-451435Y), 01 Sep  
2012

Hav Soran Singh (No. 8033229W now JC-451436F),  
01 Sep 2012

Hav Raj Kumar Singh (No. 2685946L now JC-451437K),  
01 Sep 2012

Hav Dev Kumar Yadav (No. 2683301K now JC-451438M),  
01 Sep 2012

Hav Hemant Singh Bhadoriya (No. 2686021F now JC-  
451439P), 01 Sep 2012

Hav Ramashray Singh (No. 2685434Y now JC-451440K),  
01 Sep 2012

Hav Jugal Singh Rathore (No. 2685246X now JC-451441M), 01 Sep 2012

Hav Yogindra Kumar (No. 2685851L now JC-451442P),  
01 Sep 2012

Hav Pradeep Kumar (No. 2682940Y now JC-451443X),  
01 Sep 2012

Hav Sanjai Kumar (No. 2687354A now JC-451444A),  
01 Sep 2012

Hav Balbeer Singh Shekhawat (No. 2687396M now JC-451445H), 01 Sep 2012

Hav Joginder Singh (No. 2683746W now JC-451446L),  
02 Sep 2012

Hav Balvir Singh (No. 2683996X now JC-451447N),  
03 Sep 2012

Hav Kundan Singh (No. 2683614H now JC-451448W),  
24 Sep 2012

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Parse Sudhakar Sopan Rao (No. 2684258A now  
JC-451449Y), 01 Sep 2012

#### THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Darbar Singh (No. 3389619P now JC-500501H),  
01 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Harbhajan Singh (No. 3391529M now JC-500502L),  
01 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balihar Singh (No. 3391753Y now JC-500503N),  
01 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Salwinder Singh (No. 3390546A now JC-500504W),  
03 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
02 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Parmjit Singh (No. 3390266M now JC-500505Y),  
26 Sep 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
16 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gulzar Singh (No. 3390162L now JC-500506F), 17 Sep  
2012

Hav Kulwinder Singh (No. 3390387N now JC-500507K),  
17 Sep 2012

Hav Dilbagh Singh (No. 3390677L now JC-500508M),  
11 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
29 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gurnam Singh (No. 3390876Y now JC-500509P),  
01 Oct 2012

Hav Didar Singh (No. 3390863F now JC-500510K), 01 Oct  
2012

Hav Ranjit Singh (No. 3391366K now JC-500511M),  
01 Oct 2012

Hav Pargat Singh (No. 3392070X now JC-500512P),  
08 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kinderpal Singh (No. 3392113F now JC-500513X),  
15 Oct 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mohinder Singh (No. 3391782N now JC-500514A),  
01 Nov 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef  
01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Daljit Singh (No. 3392727K now JC-500515H), 01 Oct  
2012

Hav Nirmaljit Singh (No. 3393472F now JC-500516L),  
01 Oct 2012

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Bhupendra Singh Rathore (No. 3391802W now  
JC-500517N), 01 Nov 2012

#### JAK RIF

To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Harbans Singh (No. 4359839A now JC-581551L),  
01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Avtar Singh (No. 13753377X now JC-581552N),  
01 Oct 2012

Hav Naresh Kumar (No. 13754549N now JC-581553W),  
01 Oct 2012

Hav Naresh Kumar (No. 13754664N now JC-581554Y),  
01 Oct 2012

Hav Mohd Shafiq (No. 13754719M now JC-581555F),  
01 Oct 2012



Hav Ramesh Lal Malhotra (No. 13753078Y now JC-581556K), 17 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 22 Sep 2012)

Hav Hukam Chand (No. 13751562M now JC-581557M), 12 Oct 2012\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 08 Oct 2012)

Hav Trilok Singh (No. 13754138P now JC-581558P), 01 Nov 2012

Hav Ravindra Singh (No. 13754816K now JC-581559X), 01 Nov 2012

Hav Vijay Kumar Ale (No. 13753511X now JC-581560M), 01 Nov 2012

Hav Raju Thapa (No. 13753512A now JC-581561P), 01 Nov 2012

#### JAK LI

To be Nb Sub (Clk SD) & (GD) Category

Hav (Clk) Kamlesh Kumar (No. 9096464A now JC-594127F), 05 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Manohar Lal (No. 9089360W now JC-594128K), 26 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jun 2012)

Hav Lal Hussain (No. 9094956A now JC-594129M), 04 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Yash Paul Singh (No. 9095681K now JC-594130F), 04 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Romesh Kumar (No. 9094330H now JC-594131K), 09 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Mohd Rafiq (No. 9094540H now JC-594132M), 03 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Mohd Farooq (No. 9094854K now JC-594133P), 08 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Surinder Pal Singh (No. 9089330Y now JC-594134X), 15 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jul 2012)

Hav Parshotam Choudhary (No. 9096644H now JC-594135A), 24 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

CHM Kabir Hussain (No. 9094936M now JC-594136H), 24 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Ujagar Ram (No. 9089089X now JC-594137L), 23 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

CHM Davinder Lal (No. 9096462P now JC-594138N), 29 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Gulam Mohd (No. 9094902M now JC-594139W), 29 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Bodh Raj (No. 9089627A now JC-594140L), 11 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Thoru Ram (No. 9094258X now JC-594141N), 15 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Aug 2012)

Hav (Clk) Krishan Kumar (No. 9096001L now JC-594142W), 05 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Bachan Lal (No. 9094334Y now JC-594143Y), 15 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Ashok Kumar (No. 9089776N now JC-594144F), 22 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012)

Hav Anchal Singh (No. 9094224K now JC-594145K), 22 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012)

Hav Jahangir Ahmed (No. 9095498F now JC-594146M), 05 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012)

Hav Suresh Paul (No. 9094477Y now JC-594147P), 17 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012)

Hav Darshan Singh (No. 9094482K now JC-594148X), 17 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012)

Hav Reyaz Ahmed Khan (No. 9094737Y now JC-594149A),  
18 Sep 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Roop Lal (No. 9089424W now JC-594150P), 17 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Mohd Rayaz (No. 9094613K now JC-594151X), 17 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Nek Ram (No. 9095547Y now JC-594152A), 10 Aug  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Khalil Ahmed (No. 9096425F now JC-594153H), 15 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Javid Iqbal (No. 9096652F now JC-594154L), 30 Aug  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Mohd Rafiq (No. 9094196H now JC-594155N), 01 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Payar Singh (No. 9088699X now JC-594156W), 15 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012)

Hav Dalbir Singh (No. 9089707X now JC-594157Y), 01 Oct  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Balbir Singh (No. 9089160A now JC-594158F), 28 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Sep 2012)

Hav Banarsi Lal (No. 9089155P now JC-594159K), 17 Sep  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Sep 2012)

Hav (Clk) Ajay Kumar (No. 9095951W now JC-594099A),  
26 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav (Clk) Avtar Singh (No. 9095936Y now JC-594100K),  
16 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav (Clk) Pradeepan E (No. 9096002N now JC-594101M),  
03 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Mohd Said (No. 9089274L now JC-594102P), 08 Jun  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Feb 2012)

Hav Rangez Singh (No. 9094787K now JC-594103X),  
12 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2012)

Hav Upjinder Singh Jasrotia (No. 9089825L now JC-  
594104A), 02 Apr 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012)

Hav Altaf Ahmed Khan (No. 9094843X now JC-594105H),  
08 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012)

Hav Kulbhushan (No. 9089282K now JC-594106L),  
31 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012)

Hav Ameer Chand (No. 9094260P now JC-594107N),  
27 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Sham Lal (No. 9089253P now JC-594108W), 18 Jun  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Jag Paul Singh (No. 9089309W now JC-594109Y),  
18 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Farid Ahmed (No. 9089877F now JC-594110N), 22 Jun  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Sukhdev Singh (No. 9094243P now JC-594111W),  
20 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)

Hav Balbir Singh (No. 9094324P now JC-594112Y), 30 Jun  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012)

Hav Sateesh Pandey (No. 15701022K now JC-594113F),  
04 Feb 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Feb 2012).

#### THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Balwinder Singh (No. 4469249K now JC-510212F),  
19 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 12 Jan 2012)

Hav Parwinder Singh (No. 4469636Y now JC-510213K),  
27 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 Mar 2012)

Hav Labh Singh (No. 4470819F now JC-510214M),  
26 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 09 Mar 2012)

Hav Bhajan Singh (No. 4468511P now JC-510215P),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 09 Mar 2012)

Hav Balwant Singh (No. 4470712M now JC-510216X),  
15 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 May 2012)

Hav Sukhminder Singh (No. 4469283K now JC-510217A),  
01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 03 May 2012)

Hav Chuhan Singh (No. 4468520W now JC-510218H),  
23 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 Jun 2012)

Hav Harjinder Singh (No. 4471448W now JC-510219L),  
26 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 Jun 2012)

Hav Paramjit Singh (No. 4474375A now JC-510220A),  
23 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 08 Jun 2012)

Hav Kuldeep Singh (No. 4470540H now JC-510221H),  
12 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 16 Jun 2012)

Hav Gurditt Singh (No. 4472081N now JC-510222L),  
19 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 19 Jun 2012)

Hav Daljit Singh (No. 4471560H now JC-510224W),  
15 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 08 Jul 2012)

Hav Buta Singh (No. 4468856W now JC-510225Y),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 26 Jul 2012)

Hav Harikrishan Singh (No. 4470602X now JC-510227K),  
02 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 Aug 2012)

Hav Kashmir Singh (No. 4469663H now JC-510228M),  
30 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 30 Aug 2012)

Hav Sukhwinder Singh (No. 4468897A now JC-510230K),  
28 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 Sep 2012)

Hav Kuldip Singh (No. 4470726M now JC-510231M),  
17 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with  
effect from 01 Sep 2012)

To be Nb Sub (Clk) (SD)

Hav (Clk) Gauswami Babugiri Shambhugiri (No. 4469536N  
now JC- 510223N), 01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with  
effect from 01 Jul 2012)

Hav (Clk) Jagbir Singh (No. 4469550A now JC-510226F),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with  
effect from 01 Aug 2012)

Hav (Clk) Chittaranjan Mishra (No. 4469611M now JC-  
510229P), 01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with  
effect from 01 Sep 2012)

Hav (Clk) Akak Macchindra Raja Ram (No. 4469613X  
now JC- 510232P), 09 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with  
effect from 01 Oct 2012)

#### THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav/Clk Md Sabir Ali Gazi (No. 2886602H now JC-  
471096L), 04 Jul 2012/01 Aug 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Imtiyaz Ahmed (No. 2889453L now JC- 471097N),  
02 Sep 2012/01 Jan 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 2885618F now JC-471098W),  
28 Jul 2012/04 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Apr  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Narender Singh (No. 2886415K now JC-471099Y),  
28 Jul 2012/04 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Apr  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kishan Singh (No. 2888554M now JC-471100H),  
28 Jul 2012/01 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhdev Singh (No. 2888786L now JC-471101L),  
28 Jul 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Buddhiman Singh (No. 2886344N now JC-471102N),  
31 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Sohan Lal (No. 2887387P now JC-471103W), 20 Aug  
2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Balram Singh (No. 2887989H now JC-471104Y),  
31 Aug 2012/22 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jul 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Harpal Singh (No. 2887182A now JC-471105F),  
31 Aug 2012/29 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jul 2012  
without effect on pay and allowances)

Hav Upender Kumar (No. 2885104K now JC-471106K),  
23 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kamallesh Singh (No. 2887126F now JC-471107M),  
28 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Singh (No. 2888445A now JC-471108P),  
09 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Krishana Swaroop (No. 2886610F now JC-471109X),  
25 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh (No. 2888533W now JC-471110M),  
09 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Singh Tomar (No. 2886675P now JC-471111P),  
25 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Govind Singh (No. 2889319A now JC-471112X), 04  
Sep 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagbir (No. 2885499W now JC-471113A),  
20 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mangat Singh (No. 2887019A now JC-471114H),  
20 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Renwat Dan Charan (No. 2888619P now JC-  
471115L), 01 Sep 2012

Hav Bal Singh (No. 2885136M now JC-471116N),  
01 Sep 2012

Hav Pradeep Kumar (No. 2885961K now JC-471117W),  
01 Sep 2012

Hav Sher Singh (No. 2888135P now JC-471118Y),  
01 Sep 2012

Hav Mehar Pratap Singh (No. 2891245P now JC-471119F),  
01 Sep 2012

Hav Subhash Chandra (No. 2893049N now JC-471120W),  
01 Sep 2012

#### THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Satyawar Singh (No. 4074380X now JC-490869P),  
01 Sep 2012

Hav Mukesh Singh (No. 3181475Y now JC-490870K),  
01 Oct 2012

Hav Mahesh Kumar Payal (No. 3188614A now JC-  
490871M), 01 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dilbag Singh (No. 3184416X now JC-490873X),  
25 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Singh Choudhary (No. 3185275A now JC-  
490874A), 01 Oct 2012

Hav Parveen Kumar (No. 3193481Y now JC-490875H),  
08 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Singh (No. 3184422L now JC-490876L), 06 Nov  
2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Singh (No. 3191276Y now JC-490877N), 01 Nov  
2012

Hav Om Prakash (No. 3184706P now JC-490878W),  
11 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagvir Singh (No. 3185588Y now JC-490879Y),  
01 Nov 2012

Hav Shio Lal (No. 3184709H now JC-490880N), 16 Nov  
2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Faruk Ahammed (No. 3183969F now JC-490881W),  
20 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

#### THE GARHWAL RIFLE

To be Nb Sub (GD)

Hav Puran Singh Panwar (No. 4071517N now JC-  
531273M), 16 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Singh (No. 4072082H now JC-521274P),  
26 Sep 2012/02 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Karan Singh (No. 4071939Y now JC-531275X),  
26 Sep 2012/02 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Aug  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ajay Vardhan (No. 3391167W now JC-531276A),  
01 Sep 2012

Hav Lakshman Singh (No. 4071999N now JC-531277H),  
05 Oct 2012/01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Khima Nand (No. 4074055X now JC-531278L),  
26 Sep 2012/01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Prasad (No. 4072199F now JC-531279N),  
23 Sep 2012/01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bikram Singh (No. 4070630W now JC-531280H),  
12 Oct 2012/14 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Sep  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Purshotam Dutt Raturi (No. 4071386N now JC-  
531281L), 10 Oct 2012/01 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Krishna Singh (No. 4071713N now JC-531282N),  
08 Oct 2012/01 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Rajeev Singh (No. 4073637L now JC-531283W),  
12 Oct 2012/01 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct  
2012 without effect on pay and allowances)

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Tarihalkar Uttamrao Parasharam (No. 2788887K now  
JC-460587F), 14 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef  
13 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Vasant Naik (No. 2790449A, now JC-460588K),  
01 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Jul  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Punde Ramesh Dnyaneshwar (No. 2792066M now  
JC-460589M), 31 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 22 Jul  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kishor Gurav (No. 2787117L now JC-460590F),  
15 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Sep  
2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gaikwad Abasaheb Bapurao (No. 2789958M now JC-460591K), 01 Oct 2012

Hav Gangurde Prakash Mothabhau (No. 2792056H now JC-460592M), 01 Nov 2012

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Jadhao Sudam Hirasing (No. 15362449W now JC-460586Y), 04 Oct 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav Tanaji Patil (No. 2790784K now JC-460593P), 09 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dange Dattatreya Vitthal (No. 2791240F now JC-460594X), 06 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dhokane Santosh Adinath (No. 2790229W now JC-460595A), 06 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gund Sambhaji Ramchandra (No. 2789764K now JC-460598N), 01 Nov 2012

Hav Mangale Dinkar Maruti (No. 2790691P now JC-460599W), 01 Nov 2012

Hav Babar Tanaji Vilas (No. 2790837X now JC-460600A), 04 Nov 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Gireesh Kumar K (No. 2786851M now JC-460596H), 01 Nov 2012

Hav Clk (SD) Sujit Kumar Saha (No. 2786854A now JC-460597L), 01 Nov 2012

## THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD)

Hav Mukesh Kumar (No. 4268794X now JC-560805K), 12 Oct 2012/01 Apr 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012)

CQMH Suchit Kumar Sharma (No. 4268330A now JC-560806M), 12 Oct 2012/10 Apr 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kamlesh Kumar (No. 4270788H now JC-560807P), 11 Sep 2012/01 Jun 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Somra Oraon (No. 4270695N now JC-560808X), 12 Oct 2012/01 Jun 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sidiv Banra (No. 4271438H now JC-560809A), 12 Oct 2012/01 Jul 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Pitambar Beshra (No. 4269558H now JC-560810P), 25 Sep 2012/01 Sep 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Murli Kaika (No. 4271507N now JC-560811X), 05 Oct 2012/12 Sep 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

CQMH Rup Lal (No. 4270421H now JC-560812A), 03 Oct 2012/01 Oct 2012 (S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)

SUBHABARTA KARMAKAR

Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

www.dop.nic.in